



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7—जुलाई 13, 2012 (आषाढ़ 16, 1934)  
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7—JULY 13, 2012 (ASADHA 16, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2012

सेना शाखा

सं. 257, दिनांक 7 जून 2012—राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष  
नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 02 (दो) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 111 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) उपसर्ग लगे हुए हैं को 11 जून 2011 पूर्वाह्न से सेना अनुदेश 105/61, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टि के पद पर स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है :—

टी/6810 काटदरे आदित्य राजन (आईसी-75740डब्ल्यू), आईसी

टी/6823 राकेश सिंह (आईसी-75818डब्ल्यू), आईसी

राहुल सांगवान

ले कर्नल

एएमएस 8-बी

सं. 258, दिनांक 7 जून 2012—राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष  
नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

निम्नलिखित जेसीओज/एनसीओज को सेना अनुदेश 85/74 के अंतर्गत 29 अगस्त 2011 से लेफ्टिनेंट के पद पर संलिखित श्रेणी व निम्नलिखित वरीयता के क्रम में स्थायी आयोग (विशेष रुचि) में अनुदान प्रदान किया जाता है, उन सभी जेसीओज को जिनकी जेसीओज और अन्य पद में कुल मिलाकर आठ वर्ष या उससे अधिक सेवा है, और जो इस अधिसूचना में सम्मिलित हैं, उन्हें सेना अनुदेश 85/74 के सब पैरा 7(सी) के अंतर्गत केवल वेतन के लिए दो साल की वरीयता दी जाती है :—

पद व नाम (एसएल संख्या) (जेसी संख्या) पिछली आर्म/सर्विस, श्रेणी

सूबेदार मेजर कासम खान (एसएल-05146एक्स)  
(जेसी-348363ए), इंजीनियर्स, आरओ

सूबेदार मनोज एम वी (एसएल-05148एच) (जेसी-305547एल),  
इंजीनियर्स, आईईईएम (आईईएम)

सूबेदार जि प्रदीप कुमार (एसएल-05149एल) (जेसी-29752एफ),  
एएडी, टीईओ (एएडी)

सूबेदार परीक्षित मोहन्ती (एसएल-05150ए) (जेसी-329441एक्स),  
इंजीनियर्स, आरओ

सूबेदार सनिल कुमार आर (एसएल-05151एच) (जेसी-330885एन),  
इंजीनियर्स, आईई/बीआरटीएसडब्ल्यू

सूबेदार मोहम्मद खाजा (एसएल-05152एल) (जेसी-459576एच),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

सूबेदार विनोद पी जे (एसएल-05153एन) (जेसी-270493एन),  
आर्टी, आरओ

नायब सूबेदार आर सेलवा राज (एसएल-05154डब्ल्यू)  
(जेसी-378669एक्स), सिग्नल्स, टीओएसटी

नायब सूबेदार देलवाडिया अश्विन कुमार केशव जी (एसएल-05155वाई)  
(जेसी-460067डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री, आरओ

नायब सूबेदार सत्यनारायण (एसएल-05156एफ) (जेसी-331847के),  
इंजीनियर्स, आईई/बी आर एण्ड एसडब्ल्यू

नायब सूबेदार अनिल कुमार सिंहना (एसएल-05157के)  
(जेसी-331849पी), इंजीनियर्स, आईई/बीआर एण्ड एसडब्ल्यू

नायब सूबेदार मोईराडेथम बकिम चन्द्र सिंह (एसएल-05158एम)  
(जेसी-300991एक्स), एएडी, टीईओ (एएडी)

नायब सूबेदार मुकेश कुमार (एसएल-05159पी) (जेसी-301466एन),  
एएडी, टीईओ (एएडी)

हवलदार करुणाकर राव गोनगा (एसएल-05160के)  
(जेसी-9512632एन), आईसी, आरओ

हवलदार दीप कुमार बी आर (एसएल-05161एम) (जेसी-9512655पी),  
आईसी, ईडीएन ऑफिसर

हवलदार संग्राम सिंह राठौर (एसएल-05162पी) (जेसी-9512692एच),  
आईसी, आरओ

हवलदार संकुरा वि रमना रेड्डी (एसएल-05163एक्स)  
(जेसी-9512712एल), आईसी, ईडीएन ऑफिसर

हवलदार शिबू टी वी (एसएल-05164ए) (जेसी-9512749एम),  
आईसी, आरओ

हवलदार भरत सिंह गुर्जर (एसएल-05165एच) (जेसी-2595183वाई),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

हवलदार सतीश चन्द्र भट्ट (एसएल-05166एल) (जेसी-9512810एल),  
आईसी, आरओ

हवलदार रविन्दर सिंह यादव (एसएल-05167एन)  
(जेसी-14408932एल), एएडी, आरओ

हवलदार अनिल कुमार आर (एसएल-05168डब्ल्यू)  
(जेसी-9512818एक्स), आईसी, आरओ

हवलदार हैरिक्सन एस (एसएल-05169वाई) (जेसी-6930684एक्स),  
एएससी, आरओ

हवलदार तिलक वैश्य (एसएल-05170एन) (जेसी-15763276के),  
एएडी, आरओ

हवलदार सुधाकरन के पी (एसएल-05171डब्ल्यू)  
(जेसी-15129521एक्स), आर्टी, आरओ

हवलदार वासुदेव भंडारी (एसएल-05172वाई) (जेसी-13760364एच),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

हवलदार सुधीर कुमार (एसएल-05173एफ) (जेसी-2998663एफ),  
एएससी, आरओ

हवलदार सुनील कुमार (एसएल-05174के) (जेसी-14925266के),  
मैक इन्फैन्ट्री, आरओ

हवलदार प्रदीप कुमार एम यू (एसएल-05175एम) (जेसी-2601946एच),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

हवलदार अशोक कुमार (एसएल-05176पी) (जेसी-1490781एफ),  
ईएमई, आरओ

हवलदार प्रजीश एम वी (एसएल-05177एक्स) (जेसी-15667032वाई),  
सिग्नल्स, आरओ

हवलदार एन नित्यानन्दन (एसएल-05178ए) (जेसी-14418427डब्ल्यू),  
एएससी, आरओ

हवलदार आर वल्लभगुप्त (एसएल-05179एच) (जेसी-13762605डब्ल्यू),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

हवलदार कृष्ण कुमार यादव (एसएल-05180एक्स)  
(जेसी-4364837वाई), एएससी, आरओ

हवलदार थोरात आनन्द जालिन्दर (एसएल-05181ए)  
(जेसी-2604566पी), एएससी, आरओ

दफादार सैलवी मिश्रा (एसएल-05182एच) (जेसी-15472538एक्स),  
पीबीजी, आरओ

हवलदार प्रदीपने कक्कुट्टितिल (एसएल-05183एल)  
(जेसी-1486401ए), डीएससी, आरओ

हवलदार दीपक कुमार (एसएल-05184एन) (जेसी-9513941एच),  
आईसी, ईडीएन ऑफिसर

एचएमटी राकेश कुमार शर्मा (एसएल-05185डब्ल्यू)  
(जेसी-14630035वाई), ईएमई, ईएमई

हवलदार शाजी पी के (एसएल-05186वाई) (जेसी-4569794एच),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

हवलदार राकेश कुमार (एसएल-05187एफ) (जेसी-4563175वाई),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

एचएमटी प्रवीण कुमार (एसएल-05188के) (जेसी-14632708एफ),  
ईएमई, ईएमआई

हवलदार इन्द्रनील बासु मजूमदार (एसएल-05189एम) (जेसी-4566431एन),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

हवलदार नरेश चौहान (एसएल-05190एफ) (जेसी-2686973एफ),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

हवलदार हरिओम सिंह गुरुंग (एसएल-05191के) (जेसी-5348282पी),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

एचएमटी नेपाल सिंह (एसएल-05192एम) (जेसी-14631443डब्ल्यू),  
ईएमई, ईएमआई

हवलदार बलवान सिंह (एसएल-05193पी) (जेसी-14638649डब्ल्यू),  
ईएमई, आरओ

हवलदार एस पवन कुमार (एसएल-05194एक्स) (जेसी-2598429एक्स),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

आरएचएम विजय कुमार चौधरी (एसएल-05195ए)  
(जेसी-15666248एन), इन्ट, आरओ

हवलदार राजेश नेगी (एसएल-05196एच) (जेसी-14703125एल),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

हवलदार संतोष कुमार (एसएल-05197एल) (जेसी-14641153एम),  
ईएमई, आरओ

हवलदार मो. फताउदीन नसिर अहमद (एसएल-05198एन)  
(जेसी-1584033एम), इंजीनियर्स, आरओ

हवलदार बामन दलपत कुमार (एसएल-05199डब्ल्यू)  
(जेसी-12889281एफ), इन्फैन्ट्री, आरओ

नायक ब्रिजेश कुमार पाण्डेय (एसएल-05200ए) (जेसी-15133315एल),  
आर्टी, आरओ

नायक राकेश कुमार पाण्डेय (एसएल-05201एच)  
(जेसी-15767457एम), एएडी, आरओ

नायक विनोद कुमार (एसएल-05202एल) (जेसी-14623147डब्ल्यू),  
ईएमई, आरओ

नायक किरण शर्मा (एसएल-05203एन) (जेसी-13759960एच),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

नायक सचिन कुमार छेत्री (एसएल-05204डब्ल्यू) (जेसी-13621220पी),  
पीएआरए, आरओ

एल/नायक सतीश कुमार (एसएल-05205वाई) (जेसी-4271417एम),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

एल/नायक अनुराग गुप्ता (एसएल-05206एफ) (जेसी-13761113एल),  
इन्फैन्ट्री, आरओ

नीरज कुमार  
मेजर  
एएमएस 8 बी

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 259, दिनांक 7 जून, 2012--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित  
नियुक्ति करते हैं:--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से  
रु. 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + रु. 5,400/- ग्रेड पे के वेतनमान  
में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में  
अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है:--

2009एबी1337 मंगा राजू कोना, ए डी ई, बैंगलौर, 10 जून 2009

2009एबी1161 दीपक कुमार, ए आर डी ई, पुणे, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1010 निरपसे अतुल वंसतराव, ए आर डी ई, पुणे, 03 जून  
2009

2009एबी1561 भाविश कुमार, केब्स, बैंगलौर, 01 दिसम्बर 2009

2010एबी1115 सी नवीन कुमार, केब्स, बैंगलौर, 19 मई 2010

2009एबी1630 पवन कुमार साह, केयर, बैंगलौर, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1632 अजित कुमार, डेयर, बैंगलौर, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1417 जितेन्द्र कुमार बंसीबाल, डी एम एस आर डी, कानपुर,  
03 जून 2009

2010एबी1178 प्रशांत कुमार सिंह, डी आर डी एल, हैदराबाद,  
31 अगस्त 2010

2008एबी1381 किरण कुमार डंडा, डी आर डी एल, हैदराबाद,  
21 मई 2008

2008एबी1654 वी नरेश एम, डी आर डी एल, हैदराबाद,  
15 सितम्बर 2008

2009एबी1257 के कार्तिक, डी आर डी एल, हैदराबाद,  
03 जून 2009

2007एबी1103 बाला मुरुगन के, डी आर डी एल, हैदराबाद,  
23 मई 2007

2009एबी1668 गुरशरणजीत सिंह, जी टी आर ई, बैंगलौर,  
01 दिसम्बर 2009

2009एबी1419 जादव आर किसन, एच ई एम आर एल, पुणे,  
03 जून 2009

2009एबी1230 जेड ललित युवराज, एच ई एम आर एल, पुणे,  
03 जून 2009

2009एबी1665 जयंत पी कोले, एच ई एम आर एल, पुणे,  
01 दिसम्बर 2009

2008एबी1092 भुपेन्द्र सिंह, मुख्यालय ए टी वी पी,  
21 मई 2008

2009एसी1009 चन्द्र किशोर जोशी, आई आर डी ई, देहरादून,  
02 नवम्बर 2004

2010एबी1196 प्रवीण स्वामी, आई टी आर, बालासौर,  
26 नवम्बर 2010

2010एबी1185 अमित कुमार, एन एस टी एल, विशाखापत्तनम,  
06 सितम्बर 2010

2008एबी1222 पोना हरिहरान्ध, एन एस टी एल, विशाखापत्तनम,  
21 मई 2008

2010एबी1187 राजेश कुमार, आर सी आई, हैदराबाद, 08 सितम्बर  
2010

2010एबी1177 नरेन्द्र कुमार वर्मा, आर सी आई, हैदराबाद,  
25 अगस्त 2010

2010एबी1200 कोमल शर्मा, आर सी आई, हैदराबाद, 18 नवम्बर  
2010

2008एबी1290 एम स्वेता, आर सी आई, हैदराबाद, 25 सितम्बर  
2008

2009एबी1345 नरेश भुक्तिया, आर सी एम ए (एम ए टी), हैदराबाद,  
03 जून 2009

2009एबी1300 सुशील कुमार पारिदा, आर एंड डी ई (ई), पुणे,  
03 जून 2009

2009एबी1415 बिक्रम सिंह, स्पीक, दिल्ली, 03 जून 2009

2009एबी1339 विनोद कुमार विश्वकर्मा, वी आर डी ई, अहमदनगर,  
03 जून 2009

स्मिता आहूजा

उप-निदेशक/कार्मिक (एस-1)

सेना सचिव शाखा

सं. 260, दिनांक 08 जून 2012---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करती हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि जनरल के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म, लेफ्टि जनरल के मूल रैंक की प्रभावी  
तिथि

आई सी-30342, मेजर जनरल अभिजित गुहा, आर्टी (जी सी),  
01 सितम्बर 2011

मेजर जनरल के मूल रैंक में

आई सी-37297, ब्रिगेडियर आर के मट्टू, इंजि 30 सितम्बर 2010  
से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2008  
से दी जायेगी।

ए चंद्रशेखर

निदेशक/एम एस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 261, दिनांक 08 जून 2012---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित  
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ब्रिगे से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

वी एन वैद्य (एम आर-04629एच), 04 अप्रैल 2011, वेतन व पेंशन  
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है।

यश पांडे

ब्रिगे

उपमहानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सं. 262 दिनांक 08 जून 2012---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम  
एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथियों से  
पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

कर्नल से ब्रिगे

ब्रि. एलिजाबेथ जॉन, एन आर-16840के, 30 दिसम्बर 2011

ले कर्नल (सलैक्ट) से कर्नल

कर्नल अन्नाकुट्टी बाबू, एन आर-16957एच, 10 जून 2010

कर्नल राकेश कुमारी, एन आर-17347एच, 11 अगस्त 2011

कर्नल डॉली सरकार, एन आर-17340वाई, 04 जुलाई 2011

ले कर्नल से कर्नल

कर्नल पी सुशीला, एन आर-16986, एक्स, 30 दिसम्बर 2011

ले कर्नल (टी एस) से ले कर्नल (सलैक्ट)

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या, पदोन्नति की तारीख

ले कर्नल ए राधामणि, एन आर-17285एन, 09 मई 2007

ले कर्नल पी शान्ति, एन आर-17433एन, 01 अक्टूबर 2008

ले कर्नल डॉली सरकार, एन आर-17340वाई, 10 नवम्बर 2007

ले कर्नल इ अनुसूया देवी, एन आर-17564वाई, 01 मई 2009

ले कर्नल राकेश कुमारी, एन आर-17347एच, 15 अप्रैल 2008

ले कर्नल अन्नाकुट्टी बाबू, एन आर-16957एच, 01 अगस्त 2006

जे के ग्रेवाल

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

## सेना शाखा

सं. 263, दिनांक 11 जून, 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

द्रोणा शर्मा (एमएस-15321पी) (एमआर-09283एन), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2011 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

अभिषेक भारद्वाज (एमएस-15324एच) (एमआर-09250एच), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 मई 2011 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

जस कंवर सिंह (एमएस-14584एफ) (एमआर-09270डब्ल्यू), एएमसी, 17 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान के पद पर

रजत गोविन्द (एमएस-15506डब्ल्यू) (एमआर-09249एन), एएमसी, 06 फरवरी 2010

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 अक्टूबर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

थल सेना विभाग

सं. 264, दिनांक 11 जून, 2012--राष्ट्रपति महोदया, खुश होकर निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गाइड्स ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-403202ए), 02 जनवरी 2012\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-403446एन), 01 जनवरी 2012

सूबेदार राज पाल (जेसी-403434वाई), 01 फरवरी 2012\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जेसी-404317ए), 19 अक्टूबर 2011\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम नाथ (जेसी-404293एफ), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जेसी-404292वाई), 16 दिसम्बर 2011\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा (जेसी-404296पी), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार मुकेश कुमार (जेसी-404220पी), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-404150एफ), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-403929एल), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार जाधव राजेन्द्र रुप चन्द (जेसी-403926एक्स), 02 फरवरी 2012\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गोविन्द राजन एम (जेसी-403940के), 02 फरवरी 2012\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी (जेसी-404450एच), 03 फरवरी 2012\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शीश राम गुजर (जेसी-404367एल), 06 फरवरी 2012\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जनवरी 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बल राम (जेसी-404193डब्ल्यू), 15 फरवरी 2012\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम शहाय (जेसी-404252एक्स), 17 फरवरी 2012\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

|   |  |
|---|--|
| नायब सूबेदार शीलेश कुमार (जेसी-404067के), 25 फरवरी 2012 *   | हवलदार राजेश सिंह (सं. 13691778एफ अब जेसी-404853एच), 15 फरवरी 2012 *                                   |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)   | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2011 से दी जाती है)  |
| नायब सूबेदार विजय पाल (जेसी-404322एल), 01 मार्च 2012 *  | हवलदार ज्ञान रंजन साहू (सं. 13691937एन अब जेसी-404854एल), 15 फरवरी 2012 *                              |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)   | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है) |
| नायब सूबेदार सतवीर सिंह (जेसी-404154एक्स), 01 मार्च 2012  | हवलदार राम भज सुखरलिया (सं. 13691626ए अब जेसी-404855एन), 17 जनवरी 2012 *                               |
| नायब सूबेदार राम सिंह बरेथ (जेसी-404281एम), 01 मार्च 2012   | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है) |
| नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-404397एच), 01 मार्च 2012  | हवलदार अवतार चन्द (सं. 13691729वाई अब जेसी-404856डब्ल्यू), 17 जनवरी 2012 *                             |
| नायब सूबेदार भगीरथ सिंह (जेसी-404068एम), 01 मार्च 2012  | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है) |
| नायब सूबेदार सूरजमल गुजर (जेसी-404144एन), 01 मार्च 2012   | हवलदार नेत्र पाल सिंह (सं. 13692140एफ अब जेसी-404858एफ), 03 मार्च 2012 *                               |
| नायब सूबेदार जिले सिंह (जेसी-404169ए), 02 मार्च 2012 *  | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है) |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है) | हवलदार बलवान सिंह (सं. 13692834एफ अब जेसी-404859के), 04 फरवरी 2012 *                                   |
| नायब सूबेदार स्वर्णा सिंगा चवान (जेसी-404190एच), 02 मार्च 2012 *                                  | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर 2011 से दी जाती है) |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)   | हवलदार राज वीर सिंह (सं. 13690692डब्ल्यू अब जेसी-404867एच), 16 फरवरी 2012 *                            |
| नायब सूबेदार सीता राम (जेसी-404151के), 02 मार्च 2012 *  | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)   |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)   | हवलदार सीता राम (सं. 13691747एफ अब जेसी-404870एच), 01 फरवरी 2012 *                                     |
| नायब सूबेदार देवेन्द्र प्रसाद शुक्ला (जेसी-403991एक्स), 06 मार्च 2012 *                           | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)   |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)   | हवलदार भागीरथ राम (सं. 13692075एम अब जेसी-404874वाई), 08 फरवरी 2012 *                                  |
| नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-404309एफ), 07 मार्च 2012 *   | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)   |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)   | हवलदार प्रेम पाल (सं. 13693677एम अब जेसी-404876के), 06 फरवरी 2012 *                                    |
| सूबेदार (क्लर्क एसडी) के रैंक में   | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)   |
| नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) शंकरसन नायक (जेसी-404226डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012 *                      | हवलदार धर्म बीर सिंह (सं. 13691918एच अब जेसी-404839डब्ल्यू), 16 जनवरी 2012 *                           |
| *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है) | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2011 से दी जाती है) |
| नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) श्री राम प्रसाद (जेसी-404230वाई), 01 मार्च 2012                        |  |

हवलदार शेख मुस्तफा भाई हसन भाई (सं. 13690927एक्स अब जेसी-404879एक्स), 01 फरवरी 2012

हवलदार फतेह सिंह (सं. 13692605डब्ल्यू अब जेसी-404880एम), 01 फरवरी 2012

हवलदार मेजरबीर सिंह (सं. 13691757एल अब जेसी-404881पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 13691777वाई अब जेसी-404882एक्स), 01 फरवरी 2012

हवलदार ब्रिज किशोर दुवेदी (सं. 13692456एन अब जेसी-404883ए), 03 मार्च 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 13695501ए अब जेसी-404884एच), 03 फरवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार जितेन्द्र सिंह (सं. 13695503एल अब जेसी-404885एल), 09 फरवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार बीर बहादुर यादव (सं. 13693247एच अब जेसी-404886एन), 23 फरवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार राय (सं. 13693284डब्ल्यू अब जेसी-404887डब्ल्यू), 11 फरवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार दिनेश चन्द यादव (सं. 13693433वाई अब जेसी-404889एफ), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क एसडी) शिव प्रसाद प्रजापती (सं. 2887235एन अब जेसी-404877एम), 25 फरवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार (क्लर्क एसडी) मनोज कुमार सिंह यादव (सं. 13691064एन अब जेसी-404878पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एसडी) हरिद्वार कुमार (सं. 13691099के अब जेसी-404888वाई), 01 मार्च 2012

सुभद्रत करमाकर  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 265, दिनांक 11 जून 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

आसूचना कोर

नायब सूबेदार/इन्ट जीडी के पद पर

हवलदार/इन्ट जीडी जया चन्द्रन करगियाथ (सं. 14802289के अब जेसी-811579एम), 01 जुलाई 2011

हवलदार/इन्ट जीडी परमिन्दर सिंह (सं. 3389590एक्स अब जेसी-811580एफ), 01 जुलाई 2011

हवलदार/इन्ट जीडी नागर मल यादव (सं. 4183787के अब जेसी-811581के), 01 जुलाई 2011

हवलदार/इन्ट जीडी मोज़िबर रहमान (सं. 6483479पी अब जेसी-811582एम), 01 जुलाई 2011

हवलदार/इन्ट जीडी रमेश कुमार लोयर (सं. 2887529एफ अब जेसी-811583पी), 01 जुलाई 2011

हवलदार/इन्ट जीडी प्रकाश कुमार मिश्रा (सं. 14401672एच अब जेसी-811584एक्स), 01 जुलाई 2011

हवलदार/इन्ट जीडी सासि कुमार के के (सं. 14805930एच अब जेसी-811585ए), 02 जुलाई 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी प्रमोद सिंह नेगी (सं. 14805874पी अब जेसी-811586एच), 01 जुलाई 2011

हवलदार/इन्ट जीडी हरीश प्रसाद (सं. 2482431 डब्ल्यू अब जेसी-811588एन), 01 अगस्त 2011

हवलदार/इन्ट जीडी संदीप कुमार (सं. 14916645वाई अब जेसी-811589डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011

हवलदार/इन्ट जीडी खड़क सिंह (सं. 8032946एक्स अब जेसी-811590एल), 01 अगस्त 2011

हवलदार/इन्ट जीडी किशोर सिंह (सं. 2684653एन अब जेसी-811591एन), 01 अगस्त 2011

हवलदार/इन्ट जीडी सालुंके जालन्धर बाजीराव (सं. 2787607वाई अब जेसी-811592डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011

हवलदार/इन्ट जीडी विजय कुमार (सं. 13980865एन अब जेसी-811593वाई), 01 अगस्त 2011

हवलदार/इन्ट जीडी गुलजार सिंह सिद्धु (सं. 2482604एच अब जेसी-811594एफ), 01 अगस्त 2011

हवलदार/इन्ट जीडी ब्रिजेश कुमार सिंह (सं. 15371953एक्स अब जेसी-811595के), 01 अगस्त 2011

हवलदार/इन्ट जीडी लखविंदर सिंह (सं. 3391826ए अब जेसी-811598एक्स), 01 सितम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी राकेश कुमार (सं. 2482756के अब जेसी-811599ए), 01 सितम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी विनोद सिंह भाउ (सं. 9089784एम अब जेसी-811600के), 01 सितम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी दिनेश कुमार (सं. 2990529एफ अब जेसी-811601एम), 01 सितम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी लखविंदर सिंह (सं. 2482889ए अब जेसी-811602पी), 01 सितम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी के तमिलारासन (सं. 15308507एफ अब जेसी-811603एक्स), 01 सितम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी बाबू लाल यादव (सं. 4184320एल अब जेसी-811605एच), 13 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी उमा कांत भारद्वाज (सं. 13982068एफ अब जेसी-811606एल), 02 नवम्बर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी रघुवर सिंह (सं. 13692012के अब जेसी-811607एन), 15 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी पारस सिंह यादव (सं. 4183691एफ अब जेसी-811608डब्ल्यू), 14 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी चल्ला वेन्कट राव (सं. 15307326के अब जेसी-811609वाई), 14 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी देव नारायण (सं. 14801563के अब जेसी-811610एन), 17 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी शाम सिंह चिब (सं. 2482483एम अब जेसी-811611डब्ल्यू), 18 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी जाधव विष्णु रानु (सं. 13690998वाई अब जेसी-811612वाई), 14 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी महेश चन्द शर्मा (सं. 14806253एच अब जेसी-811613एफ), 12 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी प्रगट सिंह घुम्पन (सं. 3391816डब्ल्यू अब जेसी-811614के), 15 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी पिन्टो विक्टर ऐन्टोन (सं. 14802933एल अब जेसी-811615एम), 13 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी अजीत कुमार झा (सं. 14803005एफ अब जेसी-811616पी), 13 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी भगवान सिंह भाटिया (सं. 4184228एम अब जेसी-811617एक्स), 28 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी गोविन्द चन्द्रा सरकार (सं. 13691416ए अब जेसी-811618ए), 13 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी रनबीर सिंह (सं. 2989946एफ अब जेसी-811619एच), 30 अक्टूबर 2011\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी प्रमोद कुमार सिंह (सं. 14802729एम अब जेसी-811620एक्स), 14 अक्टूबर 2011\*



\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी देवेन्द्र सिंह (सं. 2990519एक्स अब जेसी-811621ए), 16 अक्टूबर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी सुब्रामनियन जी (सं. 14801659एम अब जेसी-811622एच), 20 अक्टूबर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी साजी कुमार आर (सं. 8033096एल अब जेसी-811623एल), 14 अक्टूबर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी प्रदीप कुमार सी (सं. 13981850एक्स अब जेसी-811624एन), 12 अक्टूबर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी मनोज कुमार शर्मा (सं. 13981972एफ अब जेसी-811625डब्ल्यू), 28 अक्टूबर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी वी शीबु (सं. 13982178डब्ल्यू अब जेसी-811626वाई), 17 अक्टूबर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी प्रकाश सिंह (सं. 4562245ए अब जेसी-811627एफ), 15 अक्टूबर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी सुखवीर सिंह (सं. 4184386एफ अब जेसी-811628के), 28 नवम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी महेश कुमार (सं. 13618698एफ अब जेसी-811631के), 01 नवम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी हरपाल सिंह (सं. 4184416एन अब जेसी-811632एम), 01 नवम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी निशान सिंह (सं. 3392583एम अब जेसी-811633पी), 29 नवम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी रमाकान्त तिवारी (सं. 8032859के अब जेसी-811634एक्स), 26 नवम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी पवन जीत (सं. 14806179एम अब जेसी-811635ए), 08 दिसम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी नरेश कुमार (सं. 7431071एक्स अब जेसी-811636एच), 14 दिसम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी थाथ दिलीप भाई गफूल भाई (सं. 7431025एच अब जेसी-811637एल), 01 दिसम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट जीडी एस गुरुनागनद्राचारी (सं. 15113896एम अब जेसी-811640एल), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी राज कुमार (सं. 14802813एम अब जेसी-811641एन), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार/इन्ट जीडी महेश कुमार राघव (सं. 13889112एच अब जेसी-810802वाई), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार/लिपिक एस डी के पद पर

हवलदार (लिपिक एस डी) उमेश, (सं. 7430795एच अब जेसी-811578के), 01 जुलाई 2011

हवलदार (लिपिक एस डी) बाबा सिंह, (सं. 7430826एक्स अब जेसी-811587एल), 01 अगस्त 2011

हवलदार (लिपिक एस डी) समीर कुमार विश्वास, (सं. 7430800एच अब जेसी-811596एम), 01 सितम्बर 2011

हवलदार (लिपिक एस डी) अन्थाले प्रहलाद राजाराम, (सं. 15362451एन अब जेसी-811597पी), 01 सितम्बर 2011

हवलदार (लिपिक एस डी) प्रकाश सनाडी, (सं. 6381730एम अब जेसी-811604ए), 14 अक्टूबर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक एस डी) सत्यवीर सिंह, (सं.14592309एम अब जेसी-811629एम), 02 नवम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक एस डी) सोनावने संजय अप्पा, (सं.7430876एच अब जेसी-811630एफ), 01 नवम्बर 2011

हवलदार (लिपिक एस डी) दीपक कुमार नाथ, (सं.7430877एल अब जेसी-811638एन), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार (लिपिक एस डी) सुशील कुमार, (सं.15305699वाई अब जेसी-811639डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार (लिपिक एस डी) अनिल कुमार सी, (सं.7430879डब्ल्यू अब जेसी-811642डब्ल्यू), 23 दिसम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 20 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक एस डी) हरि राम भारद्वाज, (सं.3980956ए (जेसी-810694ए), 01 अप्रैल 2002

हवलदार (लिपिक एस डी) घनश्याम सिंह, 7430377एन अब जेसी-810695एच), 01 अप्रैल 2002

राएचएम/टीसीएल भगाबाना बारिक, (सं.6928457वाई अब जेसी-810767एफ), 01 सितम्बर 2003

महेश कुमार कश्यप  
डैस्क अधिकारी

थल सेना विभाग

सं. 266, दिनांक 12 जून 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करती हैं।

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार (आम्पुनिशन तकनिशियन) एम डी बैडुल इस्लाम (सं. 6933401डब्ल्यू अब जेसी-729638एफ), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) जे एम साह (सं. 6927450एच अब जेसी-729639के), 01 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क आई एम) एस एच परिडा (सं. 6928201डब्ल्यू अब जेसी-729640वाई), 01 अक्टूबर 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) एस आर जगनाथ (सं. 6928224एक्स अब जेसी-729641एफ), 02 दिसम्बर 2011 \*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क आई एम) सी पी सिंह (सं. 6928516ए अब जेसी-729642के), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) पी आर बगवंत राव (सं. 6928614ए अब जेसी-729643एम), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार (क्लर्क आई एम) एम एस अब्दुल रजाक (सं. 6928283के अब जेसी-729644पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एस डी) आर एन दास (सं. 6928431के अब जेसी-729645एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एस डी) एस आई महेबुब (सं. 6928628ए अब जेसी-729646ए), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एस डी) एस आर प्रजापति (सं. 6928655के अब जेसी-729647एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) अनिल कुमार वी (सं. 6928658एक्स अब जेसी-729648एल), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) एस पी एस कुशवाह (सं. 6928660पी अब जेसी-729649एन), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) एम साहु (सं. 6928662ए अब जेसी-729650एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) रतन सिंह (सं. 6928664एल अब जेसी-729651एल), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) राजेश कुमार (सं. 6928672के अब जेसी-729652एन), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एस डी) विरेंद्रा प्रताप (सं. 6928667एच अब जेसी-729653डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) बी के मंडल (सं. 6928681एल अब जेसी-729654वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एस डी) राम कृष्ण (सं. 6928703वाई अब जेसी-729655एफ), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) सी वी बाबु (सं. 6928720वाई अब जेसी-729656के), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एस डी) हुकम सिंह (सं. 6928725एक्स अब जेसी-729657एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एस डी) डी पी यादव (सं. 6928739एक्स अब जेसी-729658पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एस डी) ईश्वर सिंह (सं. 6928740एम अब जेसी-729659एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) एन वी नामदेव (सं. 6928767के अब जेसी-729660एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) के एम के विट्ठल (सं. 6928768एम अब जेसी-729661पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आई एम) के एच चंदु (सं. 6928770के अब जेसी-729662एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) आर एस शाक्या (सं. 6926557एल अब जेसी-729663ए), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) डी एस बी राव (सं. 6927350एक्स अब जेसी-729664एच), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) गोपाल सिंह (सं. 6927023एम अब जेसी-729665एफ), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार (एसकेटीएमटी) समुन्द्र सिंह (सं. 6927378एक्स अब जेसी-729666एन), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) नरवीर सिंह (सं. 6927389के अब जेसी-729667डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) दलवीर सिंह (सं. 6927390वाई अब जेसी-729668वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) सतबीर (सं. 6927397एच अब जेसी-729669एफ), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) बल्वन सिंह (सं. 6927401ए अब जेसी-729670डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) बल्वन सिंह (सं. 6927402एच अब जेसी-729671वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) सुरेश कुमार (सं. 6927405डब्ल्यू अब जेसी-729672एफ), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) जसमेर सिंह (सं. 6927409एम अब जेसी-729673के), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) आर कनवर (सं. 6927412एम अब जेसी-729674एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) रोहतास (सं. 6927456के अब जेसी-729675पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) डी एस कुनवर (सं. 6927516पी अब जेसी-729676एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीएमटी) कृष्ण चन्द (सं. 6927489पी अब जेसी-729677ए), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीएमटी) महवीर सिंह (सं. 6927491एम अब जेसी-729678एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीजीएस एंड सी) जे बी सिंह (सं. 6927495एच अब जेसी-729679एल), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीएमटी) समुन्द्र सिंह (सं. 6927499वाई अब जेसी-729680ए), 01 जनवरी 2012

हवलदार (एसकेटीएमटी) राधे श्याम (सं. 6927500एच अब जेसी-729681एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार (ड्राइवर एमटी) बी प्रसाद (सं. 6926092डब्ल्यू अब जेसी-729682एल), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार (एसएचजीडी) वाई एच बाबु (सं. 6925660के अब जेसी-729683एन), 01 जनवरी 2012

हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) बिजु कुमार डी (सं. 6930848एच अब जेसी-729684डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) एस कुमार (सं. 6933491एच अब जेसी-729685वाई), 01 फरवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) टी जी दनयनोब (सं. 6928615एच अब जेसी-729686एफ), 20 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क आईएम) क्रिश्ना भारती (सं. 6928623एफ अब जेसी-729687के), 21 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क आईएम) वी जी नायर बी (सं. 6928651एन अब जेसी-729688एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) उत्तम चंद (सं. 6928679एन अब जेसी-729689पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) पी मोहन दास (सं. 6928686के अब जेसी-729690के), 02 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एसडी) शेर सिंह (सं. 6928737एम अब जेसी-729691एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) जे वी कशबा (सं. 6928771एम अब जेसी-729692पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) कश्मीर सिंह (सं. 6928773एक्स अब जेसी-729693एक्स), 01 फरवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) ए पी सेकर (सं. 6928791ए अब जेसी-729694ए), 01 फरवरी 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) नाहर सिंह (सं. 6928793एल अब जेसी-729695एच), 01 फरवरी 2012

हवलदार (क्लर्क एस डी) एन के सिंह (सं. 6928798के अब जेसी-729696एल), 01 फरवरी 2012

|   |  |
|---|--|
| हवलदार (क्लर्क आईएम) एच आर तिवारी (सं. 6928802एफ अब जेसी-729697एन), 01 फरवरी 2012           | हवलदार (एसकेटी एमटी) एस के बिसवास (सं. 6927643एच अब जेसी-729717डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012             |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) राम लुभाया (सं. 6928820के अब जेसी-729698डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012        | हवलदार (एसकेटी जीएस एण्ड सी) किरन पाल (सं. 6927645एन अब जेसी-729718वाई), 01 फरवरी 2012             |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) एस के महंता (सं. 6928822पी अब जेसी-729699वाई), 01 फरवरी 2012           | हवलदार (एसकेटी जीएस एण्ड सी) पी प्रधान (सं. 6927631एन अब जेसी-729719एफ), 01 फरवरी 2012             |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) वीरमनि एन (सं. 6928557के अब जेसी-729700एच), 01 फरवरी 2012              | हवलदार (झाइवर एम टी) बेस ओरियन (सं. 6926415एन अब जेसी-729720डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012                |
| हवलदार (क्लर्क एसडी) सुदीश कुमार एम (सं. 6928643पी अब जेसी-729701एल), 01 फरवरी 2012         | हवलदार (एसएचटी) केशव प्रसाद (सं. 6924726एच अब जेसी-729721वाई), 01 फरवरी 2012                       |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) डी साहू (सं. 6926627वाई अब जेसी-729702एन), 01 फरवरी 2012               | हवलदार (एसएचजीडी) शेर सिंह (सं. 6925792एक्स अब जेसी-729722एफ), 01 फरवरी 2012                       |
| हवलदार (क्लर्क एसडी) कुनवर पाल (सं. 6928697डब्ल्यू अब जेसी-729703डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012    | हवलदार (एसएचजीडी) ए के सिंह (सं. 6926102पी अब जेसी-729723के), 01 फरवरी 2012                        |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) जे एस मनोला (सं. 6928706एम अब जेसी-729704वाई), 01 फरवरी 2012           | हवलदार (एसएचजीडी) दलीप सिंह (सं. 6926214पी अब जेसी-729724एम), 01 फरवरी 2012                        |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) पीएआर राव (सं. 6928769पी अब जेसी-729705एफ), 01 फरवरी 2012              | हवलदार (एसएचजीडी) एच स्वैन (सं. 6926732पी अब जेसी-729725पी), 01 फरवरी 2012                         |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) धन्ना राम (सं. 6928827एन अब जेसी-729706के), 01 फरवरी 2012              | हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) एम मुथुरमन (सं. 6933106एन अब जेसी-729726एक्स), 25 फरवरी 2012 *         |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) सतनाम सिंह (सं. 6928830एन अब जेसी-729707डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012        | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाएगी) |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) के एन दादु (सं. 6928831डब्ल्यू अब जेसी-729708पी), 01 फरवरी 2012        | हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) ओ एस पाल (सं. 6935008एम अब जेसी-729727ए), 01 मार्च 2012                |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) आजाद सिंह (सं. 6928874एल अब जेसी-729709एक्स), 01 फरवरी 2012            | हवलदार (आम्युनिशन तकनिशियन) सी एस आज़ाद (सं. 6935661ए अब जेसी-729728एच), 01 मार्च 2012             |
| हवलदार (क्लर्क आईएम) जितेन बोरा (सं. 6928696एन अब जेसी-729710एम), 01 फरवरी 2012             | हवलदार (क्लर्क एसडी) के पी के राव (सं. 6928625एम अब जेसी-729729एल), 13 फरवरी 2012 *                |
| हवलदार (एसकेटी जी एस एण्ड सी) रमेश लाल (सं. 6927330के अब जेसी-729711पी), 01 दिसम्बर 2011    | *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाएगी) |
| हवलदार (एसकेटी एमटी) सुरज पाल (सं. 6927482एल अब जेसी-729712एक्स), 01 जनवरी 2012             | हवलदार (क्लर्क आईएम) आर के सिंह (सं. 6928342एल अब जेसी-729730ए), 01 फरवरी 2012                     |
| हवलदार (एसकेटी एमटी) ए एन निज़ामुद्दीन (सं. 6927538एम अब जेसी-729713ए), 01 फरवरी 2012       | हवलदार (क्लर्क आईएम) एम डी जलिलुद्दीन (सं. 6928758एच अब जेसी-729731एच), 01 मार्च 2012              |
| हवलदार (एसकेटी एमटी) अशित सरकार (सं. 6927633वाई अब जेसी-729714एच), 01 फरवरी 2012            | हवलदार (क्लर्क आईएम) शकिर हुस्सैन (सं. 6928812एल अब जेसी-729732एल), 01 मार्च 2012                  |
| हवलदार (एसकेटी एमटी) बी देबनाथ (सं. 6927641के अब जेसी-729715एल), 01 फरवरी 2012              | हवलदार (क्लर्क आईएम) यू एस यादव (सं. 6928890एच अब जेसी-729733एन), 01 मार्च 2012                    |
| हवलदार (एसकेटी जीएस एण्ड सी) पी एम मोहंता (सं. 6927641एक्स अब जेसी-729716एन), 01 फरवरी 2012 | हवलदार (क्लर्क आईएम) जेएस राणा (सं. 6928828डब्ल्यू अब जेसी-729734डब्ल्यू), 01 मार्च 2012           |

हवलदार (क्लर्क आईएम) एम प्रधान (सं. 6926167एच अब जेसी-729735वाई), 01 मार्च 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) विरेन्द्र कुमार (सं. 6928749एफ अब जेसी-729736एफ), 01 मार्च 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) एसएल प्रजापति (सं. 6926791एफ अब जेसी-729737के), 01 मार्च 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) जेड जी श्रीराम (सं. 6927386डब्ल्यू अब जेसी-729738एम), 01 मार्च 2012

हवलदार (क्लर्क आईएम) एच ए गोविंद (सं. 6928230एल अब जेसी-729739पी), 01 मार्च 2012

हवलदार (एसकेटी वेपन) वेंकटेश बाबु एस (सं. 6927711एल अब जेसी-729740के), 01 मार्च 2012

हवलदार (एसकेटी इंजीनियर) आर पी पांडे (सं. 6924996एक्स अब जेसी-729741एम), 01 मार्च 2012

हवलदार (एसकेटी इंजीनियर) एम एस यादव (सं. 6925170डब्ल्यू अब जेसी-729742पी), 01 मार्च 2012

हवलदार (एसकेटी आयुनिशन) चंद्रा सिंह (सं. 6924853एक्स अब जेसी-729743एक्स), 01 मार्च 2012

हवलदार (ड्राइवर एमटी) प्रकाश चन्द्रा (सं. 6925905पी अब जेसी-729744ए), 01 मार्च 2012

हवलदार (एसएचजीडी) जी के सिंह (सं. 6926707डब्ल्यू अब जेसी-729745एच), 01 फरवरी 2012

हवलदार (एसएचजीडी) आर एस सिंह (सं. 6926821एन अब जेसी-729746एल), 01 मार्च 2012

हवलदार (एसएचजीडी) प्रदीप कुमार (सं. 6926826एम अब जेसी-729747एन), 01 मार्च 2012

नन्द किशोर कश्मीर  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 267, दिनांक 12 जून 2012--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जसनबीर सिंह (जेसी-418852एल), 02 मार्च 2012 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

सूबेदार मेघ राज (जेसी-419474के), 01 मार्च 2012

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चंदर भान (जेसी-421426एच), 17 जनवरी 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ओंकार सिंह चौहान (जेसी-421352वाई), 10 फरवरी 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार उमेश कुमार बल (जेसी-421122एल), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-421128एम), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार दिनेश कुमार शर्मा (जेसी-421132पी), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार विजय पाल (जेसी-421307एम), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार विष्णु भेंडवाडे (जेसी-421428एन), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार महेश चन्द्र झालया (जेसी-421429डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार के मुनियंडी (जेसी-421512एन), 10 मार्च 2012 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जसवंत (सं. 14918861एल अब जेसी-422112एन), 01 फरवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

हवलदार भगवान सिंह रावत (सं. 14917868एच अब जेसी-422113डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 14920502डब्ल्यू अब जेसी-422114वाई), 31 दिसम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 नवम्बर 2011 से दी जाती है)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 14916496डब्ल्यू अब जेसी-422115एफ), 19 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार स्टीफन केनेडी (सं. 14919884वाई अब जेसी-422116के), 05 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार देवेन्द्र पाल सिंह (सं. 14916252एच अब जेसी-422117एम),  
02 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार तिलक राज (सं. 14916385वाई अब जेसी-422118पी),  
02 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुरिन्द्र सिंह (सं. 14916626एन अब जेसी-422119एक्स),  
02 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 14920209वाई अब जेसी-422120एम),  
02 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार देश राज (सं. 14917068के अब जेसी-422121पी),  
02 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुखा राम देवासी (सं. 14919843पी अब जेसी-  
422122एक्स), 04 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 14920125एल अब जेसी-422123ए),  
16 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 14919940एम अब जेसी-422124एच),  
01 जनवरी 2012

हवलदार संजय कुमार (सं. 14920854एन अब जेसी-422125एल),  
14 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुनील कुमार (सं. 14918204एफ अब जेसी-422126एन),  
01 जनवरी 2012

हवलदार राम सुख (सं. 14918627पी अब जेसी-422127डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2012

हवलदार मुकेश बाबु (सं. 14918524डब्ल्यू अब जेसी-422128वाई),  
01 जनवरी 2012

हवलदार अनिल कुमार (सं. 14918709एक्स अब जेसी-422129एफ),  
10 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14918998एक्स अब जेसी-  
422130डब्ल्यू), 10 जनवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार राम सेवक मिस्त्री (सं. 14915947वाई अब जेसी-  
422131वाई), 11 फरवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 02 जनवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार राजेश रंजन (सं. 14917993एम अब जेसी-422132एफ),  
01 फरवरी 2012

हवलदार कस्तूरी लाल (सं. 14918608के अब जेसी-422133के),  
01 फरवरी 2012

हवलदार बिभूति कुमार साह (सं. 14920705ए अब जेसी-422134एम),  
01 फरवरी 2012

हवलदार राकेश कुमार सिंह (सं. 14919686एन अब जेसी-  
422135पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार बलबीर (सं. 14918820एफ अब जेसी-422136एक्स), 04  
फरवरी 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द्रा सिंह (सं. 14919643वाई अब जेसी-422137ए),  
01 मार्च 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

क्वचित कोर  
नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार राजन्ना के वी (सं. 15462912एफ अब जेसी-245493एच),  
19 जनवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

दफादार राजेश कुमार सिंह (सं. 15465521एफ अब जेसी-  
245505एम), 01 फरवरी 2012

दफादार दर्शन सिंह (सं. 15463112पी अब जेसी-245516वाई),  
01 फरवरी 2012

दफादार जहांगीर मलीक (सं. 15461713एफ अब जेसी-245533वाई),  
15 जनवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

दफादार हरविन्द्र सिंह (सं. 15461626एन अब जेसी-245545एन),  
01 फरवरी 2012

दफादार राजेश्वर माहतो (सं. 1099645वाई अब जेसी-245567एम),  
01 फरवरी 2012

दफादार नवीन चन्द्र सुदान (सं. 15461210डब्ल्यू अब जेसी-  
245568पी), 01 फरवरी 2012

दफादार नरेन्द्र सिंह (सं. 15463256एक्स अब जेसी-245573ए),  
01 फरवरी 2012

दफादार चरनजीत सिंह (सं. 15463323एक्स अब जेसी-245574एच),  
01 फरवरी 2012

दफादार देश राज ठाकुर (सं. 1546486एच अब जेसी- 245580डब्ल्यू),  
03 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार दिगर सिंह (सं. 1099305डब्ल्यू अब जेसी-245583के),  
01 फरवरी 2012

दफादार जगजीत सिंह (सं. 15462735एम अब जेसी-245584एम),  
30 जनवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 15 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार त्रिभुवन कुमार (सं. 15465623एक्स अब जेसी-245588एच),  
01 फरवरी 2012

दफादार सिबा प्रसाद राउत (सं. 15462792एन अब जेसी-245590ए),  
24 जनवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र कुमार (सं. 15465223एल अब जेसी-245591एच),  
27 जनवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार भगवंत सिंह (सं. 15467055डब्ल्यू अब जेसी-245592एल),  
10 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार जोगिन्दर सिंह (सं. 1099623ए अब जेसी-245593एन),  
25 जनवरी 2012

दफादार गोलीवी ईश्वर राव (सं. 1099719एच अब  
जेसी-245594डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

दफादार पवन सिंह (सं. 15463686एफ अब जेसी-245596एफ),  
06 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार रितेश कुमार (सं. 15461988पी अब जेसी-245598एम),  
01 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार जगराज सिंह चहाल (सं. 15461139एन अब  
जेसी-245599पी), 01 फरवरी 2012

दफादार सुखदेव सिंह (सं. 15461144वाई अब जेसी-245600वाई),  
01 फरवरी 2012

दफादार वेंकटेशन आर (सं. 15462990वाई अब जेसी-245601एफ),  
01 फरवरी 2012

दफादार प्रेम प्रकाश सिंह (सं. 15461720एक्स अब जेसी-  
245604पी), 04 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार बलजीत सिंह (सं. 15462220एम अब जेसी-245610एच),  
02 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार राजवीर सिंह (सं. 15462271ए अब जेसी-245611एल),  
02 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार रविन्दर कुमार (सं. 15468832ए अब जेसी-245614वाई),  
07 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार चरनजीत सिंह (सं. 15461148पी अब जेसी-245620एम),  
06 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार अल्लानुर कशात (सं. 15463603एल अब जेसी-  
245622एक्स), 07 फरवरी 2012 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार सतनाम सिंह (सं. 15463814एन अब जेसी-245623ए),  
07 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार प्रदीप के जी (सं. 15463552एच अब जेसी-245624एच),  
05 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार अनवर हुसैन (सं. 15464784एन अब जेसी-245626एन),  
05 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार पिताबासा साहु (सं. 15462675एच अब जेसी-  
245627डब्ल्यू), 06 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार जगदीश (सं. 15461521के अब जेसी-245438एम),  
07 दिसम्बर 2011\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

दफादार सबल सिंह (सं. 15461569एक्स अब जेसी-245514एन),  
01 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार दिनेश कुमार झाझरिया (सं. 15461872वाई अब  
जेसी-245546डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

दफादार श्रीनिवासा रेड्डी डी (सं. 15462022एफ अब  
जेसी-245547वाई), 22 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार रोकडे योगीराज जगन्नाथ (सं. 15462477एम अब  
जेसी-245569एक्स), 01 मार्च 2012

दफादार सरनाम सिंह (सं. 15462031एच अब जेसी-245576एन),  
26 जनवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार मीर कमरुज्जमान (सं. 15463830एल अब जेसी-  
245587ए), 26 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 जनवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार कोमल सिंह (सं. 15462063एल अब जेसी-245589एल),  
22 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार राजेश सिंह (सं. 15464121एच अब जेसी-245595वाई),  
07 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार लखविन्दर सिंह (सं. 15467244ए अब जेसी-245602के),  
01 मार्च 2012

दफादार कुम्भार दयामंद शंकर (सं. 1099783ए अब जेसी-  
245605एक्स), 01 मार्च 2012

दफादार वेलमुरुगन के (सं. 15461041ए अब जेसी-245606ए),  
01 मार्च 2012

दफादार विरेन्दर सिंह राठोड (सं. 15463967एक्स अब  
जेसी-245616के), 08 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार हरपाल सिंह (सं. 15464371के अब जेसी-245619एक्स),  
01 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार बलविन्दर सिंह (सं. 15463450एम अब जेसी-245666पी),  
01 मार्च 2012

दफादार हरभजन सिंह (सं. 15463821के अब जेसी-245667एक्स),  
01 मार्च 2012

दफादार गोबर्धन भोई (सं. 15462673एक्स अब जेसी-245628वाई),  
01 मार्च 2012

दफादार गोपाल यादवा (सं. 15462437डब्ल्यू अब  
जेसी-245629एफ), 01 मार्च 2012

दफादार माखन सिंह (सं. 15462205एक्स अब जेसी-  
245630डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

दफादार जरनेल सिंह (सं. 15464294ए अब जेसी-245631वाई),  
01 मार्च 2012

दफादार राकेश कुमार (सं. 15461415एल अब जेसी-245639एल),  
27 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)



दफादार साहब सिंह (सं. 15461579एफ अब जेसी-245640ए),  
13 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार परवीन कुमार (सं. 15461580डब्ल्यू अब जेसी-  
245641एच), 27 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार राजिन्दर कुमार (सं. 15465707एल अब जेसी-  
245642एफ), 18 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार (सं. 15461877एक्स अब जेसी-  
245643एन), 01 मार्च 2012

दफादार अवदेश सिंह (सं. 15465486के अब जेसी-245656एल),  
18 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार मित्रपाल (सं. 15465693डब्ल्यू अब जेसी-245657एन),  
18 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्र कुमार (सं. 15465741एल अब जेसी-245658डब्ल्यू),  
18 फरवरी 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार सुमेन्द्र सिंह (सं. 15466660एक्स अब जेसी-245659वाई),  
02 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार श्रावण कुमार सिंह (सं. 15464544डब्ल्यू अब  
जेसी-245669एच), 01 मार्च 2012

दफादार भारत भूषण (सं. 1099307एफ अब जेसी-245670एक्स),  
01 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 फरवरी 2012 से दी जाती है)

दफादार जसप्रीत सिंह (सं. 15464231एक्स अब जेसी-  
245675डब्ल्यू), 05 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार नरिन्दर सिंह (सं. 15463412डब्ल्यू अब जेसी-245679एम),  
03 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार रामबीर (सं. 15464148ए अब जेसी-245680एफ),  
03 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार बलजीत सिंह (सं. 15463462एफ अब जेसी-245681के),  
03 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार राजेश कुमार (सं. 15463679एल अब जेसी-245686एच),  
06 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार सुरेश कुमार (सं. 15462705पी अब जेसी-245687एल),  
06 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार गुरमीत सिंह (सं. 15461235एच अब जेसी-245697पी),  
07 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

दफादार निशान सिंह (सं. 15461374एम अब जेसी-245698एक्स),  
12 मार्च 2012\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

सुभद्रत करमाकर  
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 268, दिनांक 12 जून 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल  
पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर वाइस मार्शल के मूल रैंक में

एयर वाइस मार्शल एम आर पवार (15833), वै.ई.(या), 01 सितम्बर  
2011

एयर वाइस मार्शल एस एन मूर्ति (15945), वै.ई.(वै), 01 अक्टूबर 2011

एयर वाइस मार्शल एच शर्मा (15941), वै.ई.(वै), 01 अक्टूबर 2011

एयर वाइस मार्शल आर के एस शेरा (16315), वै.ई.(वै), 01 अक्टूबर 2011

एयर वाइस मार्शल बी के सूद (16319), वै.ई.(वै), 02 जनवरी 2012  
(प्रशासनिक सेवा)

एयर वाइस मार्शल बी बी पी सिन्हा (15748), प्रशा., 01 अक्टूबर 2011

उड़न शाखा

एयर वाइस मार्शल (उड़न) के मूल रैंक में

एयर वाइस मार्शल आर नाम्बियार (16378), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर वाइस मार्शल पी एन प्रधान (16403), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर वाइस मार्शल एच एस अरोड़ा (16557), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर वाइस मार्शल एन जे एस डिल्लन (16580), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर वाइस मार्शल आर सचदेवा (16582), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर वाइस मार्शल ए सुब्रमनियम (16592), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर वाइस मार्शल वी एस भारती (16611), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर वाइस मार्शल आर डी माथुर (16772), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

(प्रशासनिक शाखा)

(ग्रुप कैप्टन) के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टन एस दूबे (18309), प्रशासनिक, 04 अप्रैल 2011

ग्रुप कैप्टन डी बी पाटील (18312), प्रशासनिक, 02 मई 2011

ग्रुप कैप्टन आर श्रीनिवासन (18327), प्रशासनिक, 02 मई 2011

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

-----

सेना शाखा

सं. 269, दिनांक 13 जून 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन

सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

अतिया अजिज़ (एमएस-15727एच) (एमआर-09279एल), एएमसी, 25 अप्रैल 2010

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 दिसम्बर 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

कप्तान के पद पर

जस कंचर सिंह (एमएस-14584एफ) (एमआर-09270डब्ल्यू), एएमसी, 17 मार्च 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

द्रोणा शर्मा (एमएस-15321पी) (एमआर-09283एन), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अतिया अजिज़ (एमएस-15727एच) (एमआर-09279एल), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 25 अप्रैल 2006 से हो जाएगी। [इसमें पी. जी. डिप्लोमा (स्त्री रोग एवं प्रसूति) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी]

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

स्वराज पाल खजुरिया (एमएस-15863वाई) (एमआर-09275पी), एएमसी, 12 अगस्त 2008

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 12 फरवरी 2008 से हो जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

राहुल शर्मा (एमएस-15929के) (एमआर-09267डब्ल्यू), एएमसी, 16 सितम्बर 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रदद् किया जाता है)

विकास चौधरी (एमएस-15852एम) (एमआर-09263ए), एएमसी, 12 अगस्त 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 अगस्त 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रदद् किया जाता है)

श्रीहरि अय्यर के (एमएस-15776एम) (एमआर-09256के), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रदद् किया जाता है)

अभिषेक भारद्वाज (एमएस-15324एच) (एमआर-09250एच), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रदद् किया जाता है)

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

रजित कुमार (एमएस-15817के/एफ-29437आर) (एमआर-09271वाई), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रदद् किया जाता है)

लेफ्टि के पद पर

रजत गोविन्द (एमएस-15506डब्ल्यू) (एमआर-09249एन), एएमसी, 26 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रदद् किया जाता है)

यश पांडे  
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

-----

सेना शाखा

सं. 270, दिनांक 13 जून 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवा निवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों

से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-43374) कर्नल आईविन जॉर्ज, इन्फैन्ट्री, 27 जुलाई 2006 (अपराह)

(आईसी-37577) कर्नल (टीएस) एम एम थिमय्याह, इन्फैन्ट्री, 19 जुलाई 2006 (अपराह)

(आईसी-34061) कर्नल रन्वीर कुमार अब्रोल, मैक इन्फैन्ट्री, 28 अक्टूबर 2006 (अपराह)

(आईसी-37184) कर्नल सुरेश कुमार जामवाल, वीएसएम, इन्फैन्ट्री, 11 दिसम्बर 2006

(आईसी-31676) कर्नल (टीएस) नबयेन्दु कान्ति भट्टाचार्या, इन्फैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2006 (अपराह)

(आईसी-30741) कर्नल (टीएस) खन्ना विवेक कुमार, इन्फैन्ट्री, 02 अक्टूबर 2006 (अपराह)

(आईसी-39447) ए/कर्नल जगमोहन सिंह, इन्फैन्ट्री, 05 अगस्त 2006 (अपराह)

(आईसी-39897) ए/कर्नल भरत भूषन वत्स, मैक इन्फैन्ट्री, 31 मई 2006 (अपराह)

(आईसी-39693) कर्नल हुरा राकेश, इन्फैन्ट्री, 13 जुलाई 2006 (पूर्वाह)

(आईसी-38228) कर्नल (टीएस) चन्द्र शेखर जोशी, ईसी, 12 दिसम्बर 2006 (अपराह)

(आईसी-36463) कर्नल (टीएस) विनोद भल्ला, ईएमई, 14 अक्टूबर 2006 (अपराह)

(आईसी-39157) कर्नल शर्मा हर्षवर्धन, इन्फैन्ट्री, 15 मई 2007 (अपराह)

(आईसी-40717) कर्नल सन्दीप धवन, इन्फैन्ट्री, 02 अप्रैल 2007 (अपराह)

(आईसी-43113) कर्नल गुरविन्दर सिंह बेदी, एसएम मैक इन्फैन्ट्री, 31 जुलाई 2007 (अपराह)

(आईसी-43325) कर्नल चौबल समीर अरविन्द, इन्फैन्ट्री, 24 सितम्बर 2007 (अपराह)

(आईसी-39100) कर्नल बिक्रम सेठ, इन्फैन्ट्री, 14 मार्च 2007 (अपराह)

(आईसी-43289) कर्नल नायर श्याम भास्करन, इन्फैन्ट्री, 27 अगस्त 2007 (अपराह)

(आईसी-35982) कर्नल बी छवन सतीश, इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2007 (अपराह)

- (आईसी-39009) कर्नल (टीएस) शमीम अलि खान, इन्फैन्ट्री, 06 जुलाई 2007 (अपराह)
- (आईसी-42679) कर्नल जदविन्दर पाल सिंह, ईएमई, 16 जनवरी 2007 (अपराह)
- (आईसी-34456) कर्नल (टीएस) महेश सी कनगोतगी, एससी, 10 अक्टूबर 2005 (अपराह)
- (आईसी-44380) कर्नल मनु राज सिंह, इन्फैन्ट्री, 26 सितम्बर 2007 (अपराह)
- (आईसी-33888) कर्नल (टीएस) नरेश यादव, इन्फैन्ट्री, 18 मार्च 2007 (अपराह)
- (आईसी-34625) कर्नल (टीएस) जगदीश सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2007 (अपराह)
- (आईसी-39202) कर्नल (टीएस) पाटिल शरदचन्द्र शंकरराव, इन्फैन्ट्री, 26 जून 2007 (अपराह)
- (आईसी-40890) कर्नल रजनीश हान्डा, इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2007 (अपराह)
- (आईसी-38510) कर्नल (टीएस) शिवनन्द बसप्पा करडी, आर्टी, 09 मई 2007 (अपराह)
- (आईसी-38860) कर्नल (टीएस) अरविन्द कुमार आनन्द, एसी, 08 जुलाई 2008 (अपराह)
- (आईसी-39089) कर्नल बलबीर सिंह गिल, एसी, 11 अप्रैल 2008 (अपराह)
- (आईसी-38831) कर्नल (टीएस) हर्ष सचदेव, आर्टी, 07 जून 2008 (अपराह)
- (आईसी-45963) कर्नल विनीत सेठ, इन्फैन्ट्री, 06 मार्च 2011 (अपराह)
- (आईसी-48537) कर्नल अलोक झा, एसएम इन्फैन्ट्री, 15 मई 2011 (अपराह)
- (आईसी-40384) कर्नल जार्ज जेकब, इन्फैन्ट्री, 12 नवम्बर 2011 (अपराह)
- (आईसी-51449) कर्नल विनोद कुमार, ईएमई, 03 नवम्बर 2011 (अपराह)
- (आईसी-44586) कर्नल सुखबीर सिंह, एओसी, 30 नवम्बर 2011 (अपराह)
- (आईसी-47116) कर्नल राजेश सिंह हून, सिग्नल्स, 31 अक्टूबर 2011 (अपराह)
- (आईसी-48642) कर्नल अनुराग चन्द्रा, सिग्नल्स, 31 जुलाई 2011 (अपराह)
- (आईसी-44113) कर्नल कबीर चौधरी, इन्फैन्ट्री, 07 जनवरी 2012 (अपराह)
- (आईसी-48566) कर्नल एस डी अरवेन्दन, इन्फैन्ट्री, 02 जनवरी 2012 (पूर्वाह)
- (आईसी-42373) कर्नल शरद पालिवाल, आर्मी एबीएन, 13 जनवरी 2012 (अपराह)
- (आईसी-39400) कर्नल (टीएस) पचौरी विपिन बिहारी लाल, ईएमई, 31 मई 2006 (अपराह)
- (आईसी-45542) कर्नल पी एन बालासुब्रमनियन, ईएमई, 12 सितम्बर 2006 (अपराह)
- (आईसी-40683) ए/कर्नल सुदेश प्रकाश यादव, ईएमई, 24 मई 2006 (अपराह)
- (आईसी-34282) कर्नल प्रभदीप सिंह सन्धू, ईएमई, 29 जून 2006 (अपराह)
- (आईसी-35431) कर्नल (टीएस) अभय कुमार पटोरिया, ईएमई, 16 मार्च 2006 (अपराह)
- (आईसी-31355) कर्नल मनबीर हून्डल, एसी, 10 दिसम्बर 2006 (अपराह)
- (आईसी-38103) कर्नल (टीएस) शन्दवारपू विजय कुमार, इन्ट, 04 दिसम्बर 2006 (अपराह)
- (आईसी-42970) कर्नल नरेश कुमार सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2007 (अपराह)
- (आईसी-38322) कर्नल पेन्डसे जयन्त आर, इन्फैन्ट्री, 21 अप्रैल 2007 (अपराह)
- (आईसी-34910) कर्नल (टीएस) अनिल कुमार मद्रा, इन्फैन्ट्री, 31 मई 2007 (अपराह)
- (आईसी-35584) कर्नल गिरीश कुमार गुज्जला, वीएसएम, इन्फैन्ट्री, 06 अगस्त 2007 (अपराह)
- (आईसी-47887) कर्नल विक्टर पीटर क्रिस्टोफर, एससी, एसएम, इन्फैन्ट्री, 26 दिसम्बर 2011 (अपराह)
- (आईसी-43172) कर्नल (टीएस) रविन्द्र कुमार, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2011 (अपराह)
- (आईसी-37719) कर्नल (टीएस) भास्कर रघुनाथ, एओसी, 23 अक्टूबर 2011 (अपराह)
- (आईसी-39914) कर्नल (टीएस) फतह सिंह विर्क, आर्टी, 06 नवम्बर 2011 (अपराह)
- (आईसी-39359) कर्नल (टीएस) रबिन्द्रनाथ सेनापति, आर्टी, 31 अक्टूबर 2011 (अपराह)
- (आईसी-38807) कर्नल (टीएस) नीरज कुमार वर्मा, इन्फैन्ट्री, 07 मार्च 2011 (अपराह)
- (आईसी-38981) कर्नल (टीएस) घोरपड़े धनंजय दत्ताजीराव, इन्फैन्ट्री, 07 नवम्बर 2011 (अपराह)
- (आईसी-47026) कर्नल विकास ग्रोवर, आर्टी, 11 जनवरी 2012 (अपराह)

(आईसी-47237) कर्नल विरेन्द्र कुमार शर्मा, एएससी, 15 जनवरी  
2012 (अपराह्न)

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

वन्दना दुबे  
उप निदेशक  
एमएस/पीआर

सं. 272, दिनांक 14 जून 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष  
नियुक्ति करते हैं :--

-----

सेना शाखा

नियमित सेना

स्थाई आयोग

सं. 271, दिनांक 13 जून 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को  
सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाए रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान  
करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

लेफ्टि कर्नल जसवन्त सिंह (टीए-42118), इंजीनियर, 30 जून  
2010 (अपराह्न)

वी राजाराम  
अवर सचिव

भारत सरकार के राजपत्र, भाग-1, अनुभाग-4, जो दिनांक 30 दिसम्बर  
2006 को प्रकाशित हुआ है उसके शीर्षक नियमित सेना (स्थाई आयोग)  
में निम्नलिखित संशोधन है, जो कि आई सी संख्या 67614पी सरोज  
कुमार अधिकारी, एओसी के सन्दर्भ में है :--

“उन्हें दिनांक 11 दिसम्बर 1999 से वरीयता दी जाती है”

राहुल सांगवान  
लेफ्टि कर्नल  
एमएस-8बी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th July 2012

## ARMY BRANCH

No. 257, dated 7th June 2012—The President is pleased make the following appointments:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 02 (Two) GCs of 111 Technical Graduate Course (TGC), whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 11 Jun 2011 (F/N) under the terms and conditions of AI 105/61, as amended.

T/6810 Katdare Aditya Rajan (IC-75740W), AEC

T/6823 Rakesh Singh (IC-75818W), AEC

RAHUL SANGWAN  
Lt Col  
AMS-8B

## ARMY BRANCH

No. 258, dated 7th Jun 2012—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

The undermentioned JCOs/NCOs are granted Permanent Commission (Special List) in the categories as shown against their names in the rank of Lt under the provisions of AI 85/74 with effect from 29 Aug 2011 (FN) as per inter-se-seniority given below. JCOs mentioned in this Gazette having eight years combined service as JCO and the ranks are also granted two years ante-date seniority for pay only under the provisions of sub para 7 (c) of AI 85/74:—

Army No., Rank, Name, SL No. parent Arm/Service & Category

(JC-348363A) Sub Maj Kasam Khan (SL-05146X), Engrs, RO

(JC-305547L) Sub Manoj MV (SL-05148H), Engrs, AEE EM (IEM)

(JC-298752F) Sub G Pradeep Kumar (SL-05149L), AAD, TEO (AAD)

(JC-329441X) Sub Parikh Mohanty (SL-05150A), Engrs, RO

(JC-330885N) Sub Sanil Kumar R (SL-05151H), Engrs, AEE B/R & ASW

(JC-459576H) Sub Mohd Khaja, (SL-05152L), Inf, RO

(JC-270493N) Sub Vinoj PJ (SL-05153N), Arty, RO

(JC-378669X) Nb Sub R Selvaraj (SL-05154W), Sigs, TOsT

(JC-460067W) Nb Sub Delvadiah Ashvin Kumar Keshavji (SL-05155Y), Inf, RO

(JC-331847K) Nb Sub Sat Narayan (SL-05156F), Engrs, AEE B/R & ASW

(JC-331849P) Nb Sub Anil Kumar Sihan (SL-05157K), Engrs, AEE B/R & ASW

(JC-300991X) Nb Sub Moirangthem Bankim Chandra Singh (SL-05158M), AAD, TEO (AAD)

(JC-301466N) Nb Sub Mukesh Kumar (SL-05159P), AAD, TEO (AAD)

(JC-9512632N) Hav Karunakara Rao Gonaga (SL-05160K), AEC, RO

(JC-9512655P) Hav Deepa Kumar BR (SL-05161M), AEC, EDN Officer

(JC-9512692H) Hav Sangram Singh Rathore (SL-05162P), AEC, RO

(JC-9512712L) Hav Sunkara V Ramana Reddy (SL-05163S), AEC, EDN Officer

(JC-9512749M) Hav Shibu TV (SL-05164A), AEC, RO

(JC-2595183Y) Hav Bharat Singh Gurjar (SL-05165H), Inf, RO

(JC-9512810L) Hav Satish Chandra Bhatt (SL-05166L), AEC, RO

(JC-14408932L) Hav Ravindra Singh Yadav (SL-05167N), AAD, RO

(JC-9512818X) Hav Anil Kumar R (SL-05168W), AEC, RO

(JC-6930684X) Hav Herickson S (SL-05169Y), ASC, RO

(JC-15763276K) Hav Tilak Baishya (SL-05170N), AAD, RO

(JC-15129521X) Hav Sudhakaran KP (SL-05171W), Arty, RO

(JC-13760364H) Hav Vasudev Bhandari (SL-05172Y), Inf, RO

(JC-2998663F) Hav Sudhir Kumar (SL-05173F), ASC, RO

(JC-14925266K) Hav Sunil Kumar (SL-05174K), Mech Inf, RO

(JC-2601946H) Hav Pradeep Kumar MU (SL-05175M), Inf, RO

(JC-1490781F) Hav Ashok Kumar (SL-05176P), EME, RO

(JC-15667032Y) Hav Prajeesh MV (SL-05177X), Sigs, RO  
(JC-14418427W) Hav N Nithiyanandan (SL-05178A), ASC, RO

(JC-13762605W) Hav R Velumurugan (SL-05179H), Inf, RO

(JC-4364837Y) Hav Krishan Kumar Yadav (SL-05180X), ASC, RO

(JC-2604566P) Hav Thorat Anand Jalindar (SL-05181A), ASC, RO

(JC-15472538X) Dfr Shallavi Mishra (SL-05182H), PBG, RO

(JC-1486401A) Hav Pradeepan Kakkootathil (SL-05183L), DSC, RO

(JC-9513941H) Hav Deepak Kumar (SL-05184N), AEC, Edn Officer

(JC-14630035Y) HMT Rakesh Kumar Sharma (SL-05185W), EME, EMAE

(JC-4569794H) Hav Shaji PK (SL-05186Y), Inf, RO

(JC-4563175Y) Hav Rakesh Kumar (SL-05187F), Inf, RO

(JC-14632708F) HMT Parveen Kumar (SL-05188K), EME, EMAE

(JC-4566431N) Hav Indranil Basu Majumdar (SL-05189M), Inf, RO

(JC-2686973F) Hav Naresh Chauhan (SL-05190F), Inf, RO

(JC-5348282P) Hav Hariom Singh Gurung (SL-05191K), Inf, RO

(JC-14631443W) HMT Nepal Singh (SL-05192M), EME, EMAE

(JC-14638649M) Hav Balwan Singh (SL-05193P), EME, RO

(JC-2598429X) Hav S Pavan Kumar (SL-05194X), Inf, RO

(JC-15666248N) RHN Vijay Kumar Chaudhary (SL-05195A), Int Corps, RO

(JC-14703125L) Hav Rajesh Negi (SL-05196H), Inf, RO

(JC-14641153M) Hav Santosh Kumar (SL-05197L), EME, RO

(JC-1584033M) Hav Mohd Fathehuddin Naser Ahmed (SL-05198N), Engrs, RO

(JC-2889281F) Hav Baman Dalpat Kumar (SL-05199W), Inf, RO

(JC-1513315L) Nk Brijesh Kumar Pandey (SL-05200A), Arty, RO

(JC-15767457M) Nk Rakesh Kumar Pandey (SL-05201H), AAD, RO

(JC-14623147W) Nk Vinod Kumar (SL-05202L), EME, RO

(JC-13759960H) Nk Kiran Sharma (SL-05203N), Inf, RO

(JC-13621220P) Nk Sachin Kumar Chhetri (SL-05204W), Para, RO

(JC-4271417M) Lnk Satish Kumar (SL-05205Y), Inf, RO

(JC-137621113L) Lnk Anurag Gupta (SL-05206F), Inf, RO

NEERAJ KUMAR  
Maj  
AMS-8B

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 259, dated 7th June 2012—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Pay                 | Scale        | of                          |
| Rs. 15,600—39,100/- | (Pay Band-3) | + Grade Pay of Rs. 5,400/-. |

PIN No., Name, Estt./Lab & Date of Joining

2009AB1337 Manga Raju Kona, ADE, Bangalore, 10 Jun 2009

2009AB1616 Deepak Kumar, ARDE, Pune, 01 Dec 2009

2009AB1010 Nirpase Atul Vasantrao, ARDE, Pune, 03 Jun 2009

2009AB1561 Bhavish Kumar, CABS, Bangalore, 01 Dec 2009

2010AB1115 Chippa Naveen Kumar, CABS, Bangalore, 19 May 2010

2009AB1630 Pawan Kumar Sah, CAIR, Bangalore, 01 Dec 2009

2009AB1632 Ajeet Kumar, DARE, Bangalore, 01 Dec 2009

2009AB1417 Jeetendra Kumar Banshiwal, DMSRDE, Kanpur, 03 Jun 2009

2010AB1178 Prashant Kumar Singh, DRDL, Hyderabad, 31 Aug 2010

2008AB1381 Kiran Kumar Danda, DRDL, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1654 V Naresh Munagala, DRDL, Hyderabad, 15 Sep 2008

2009AB1257 K Karthick, DRDL, Hyderabad, 03 Jun 2009

To be Subs Maj Gen

2007AB1103 Bala Murugan K, DRDL, Hyderabad, 23 May 2007

IC No., Rank, Name, Arm & Date of Subs Maj Gen

2009AB1668 Gursharanjit Singh, GTRE, Bangalore, 01 Dec 2009

IC-37297 Brig RK Mattu, Engrs, 30 Sep 2010 with Seniority from 07 Jan 2008 without effect on pay and pension

A CHANDRASHEKHAR  
Dir/MS (X)

2009AB1419 Jadhav Ravsaheb Kisan, HEMRL, Pune, 03 Jun 2009

2009AB 1230 Zambare Lalit Yuvaraj, HEMRL, Pune, 03 Jun 2009

#### ARMY BRANCH

2009AB1665 Jaywant Pandurang Kolhe, HEMRL, Pune, 01 Dec 2009

No. 261, dated 8th June 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

Brig to be Maj Gen (& equivalent)

2008AB1092 Bhupendra Singh, HQ, ATPV, 21 May 2008

2009AC1009 Chandra Kishore Joshi, IRDE, Dehradun, 02 Nov 2004

V N Vaid (MR-04629H), 04 Apr 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Apr 2011

2010AB1196 Pravin Swami, ITR, Balasore, 26 Nov 2010

2010AB1185 Amit Kumar, NSTL, Vishakhapatnam, 06 Sep 2010

2008AB1222 Ponna Hariharanadh, NSTL, Vishakhapatnam, 21 May 2008

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

2010AB1187 Rajesh Kumar, RCI, Hyderabad, 08 Sep 2010

2010AB1177 Narendra Kumar Verma, RCI, Hyderabad, 25 Aug 2010

2010AB1200 Komal Sharma, RCI, Hyderabad, 18 Nov 2010

No. 262, dated 8th June 2012—The President is pleased to make the following promotions in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Col to Brig

2008AB1290 M Swetha, RCI, Hyderabad, 25 Sep 2008

2009AB1345 Naresh Bhukya RCMA (MAT), Hyderabad, 03 Jun 2009

2009AB1300 Sushil Kumar Parida, R&DE(E), Pune, 03 Jun 2009

Brig Elizabeth John (NR-16840K), 30 Dec 2011

Lt Col (Select) to Col

2009AB1415 Bikram Singh, SPIC, Delhi, 03 Jun 2009

2009AB1339 Vinod Kumar Vishwakarma, VRDE, Ahmednagar, 03 Jun 2009

Col Annakutty Babu (NR-16957H), 10 Jun 2010

Col Rakesh Kumari (NR-17347H), 11 Aug 2011

Col Dolly Sarkar (NR-17340Y), 04 Jul 2011

Col P Sushila (NR-16986X), 30 Dec 2011

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

SMITA AHUJA  
Dy Dir/Pers (S-1)

#### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 260, dated 8th June 2012—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officer :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Subs Lt General

IC No., Rank, Name, Arm & Date of Subs Rank

IC-30342 Maj Gen Abhijit Guha, Arty (GC), 01 Sep 2011

Lt Col A Radhamani (NR-17285N), 09 May 2007

Lt Col P Shanthi (NR-17433N), 01 Oct 2008

Lt Col Dolly Sarkar (NR-17340Y), 10 Nov 2007

Lt Col E Anusuya Devi (NR-17564Y) 01 May 2009

Lt Col Rakesh Kumari (NR-17347H), 15 Apr 2008

Lt Col Annakutty Babu (NR-16957H), 01 Aug 2006

J K GREWAL  
Maj Gen



Addl DGMNS

pay and allces wef 01 Jan 2012)

## ARMY BRANCH

To be Sub

No. 263, dated 11th June 2012—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

To be Maj

Drona Sharma (MS-15321P) (MR-09283N), AMC, 22 Sep 2010

(MoD notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Abhishek Bhardwaj (MS-15324H) (MR-09250H), AMC, 22 Sep 2010

(MoD notification published in Gazette of India dated 25 May 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Jas Kanwar Singh (MS-14584F) (MR-09270W), AMC, 17 Mar 2007

(MoD notification published in Gazette of India dated 24 Nov 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Capt

Rajath Govind (MS-15506W) (MR-09249N), AMC, 06 Feb 2008

(MoD notification published in Gazette of India dated 18 Oct 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 264, dated 11th June 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
INFANTRY  
BRIGADE OF THE GUARDS

To be Sub Maj

Sub Surinder Singh (JC-403202A), 02 Jan 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces wef 01 Jan 2012)

Sub Sukhwinder Singh (JC-403446N), 01 Jan 2012

Sub Raj Pal (JC-403434Y), 01 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on

Nb Sub Nandan Singh (JC-404317A), 19 Oct 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2011)

Nb Sub Ram Nath (JC-404293F), 01 Dec 2011

Nb Sub Kalyan Singh (JC-404292Y), 16 Dec 2011\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2011)

Nb Sub Dharmendra Kumar Misra (JC-404296P), 01 Feb 2012

Nb Sub Mukesh Kumar (JC-404220P), 01 Feb 2012

Nb Sub Ram Kumar (JC-404150F), 01 Feb 2012

Nb Sub Ajit Singh (JC-403929L), 01 Feb 2012

Nb Sub Jadhav Rajendra Rupa Chand (JC-403926X), 02 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Nb Sub Govinda Rajan M (JC-403940K), 02 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Nb Sub Sri Deepak Kumar Chaturvedi (JC-404450H), 03 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Nb Sub Sheesh Ram Gujar (JC-404367L), 06 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 21 Jan 2012)

Nb Sub Bal Ram (JC-404193W), 15 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Nb Sub Ram Shahay (JC-404252X), 17 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Nb Sub Sheesh Kumar (JC-404067K), 25 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jan 2012)

Nb Sub Vijay Pal (JC-404322L), 01 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jan 2012)

Nb Sub Satvir Singh (JC-404154X), 01 Mar 2012

Nb Sub Ram Singh Bareth (JC-404281M), 01 Mar 2012

Nb Sub Sumer Singh (JC-404397H), 01 Mar 2012

Nb Sub Bhagirath Singh (JC-404068M), 01 Mar 2012

Nb Sub Surajmal Gujar (JC-404144N), 01 Mar 2012

Nb Sub Jile Singh (JC-404169A), 02 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Dec 2011)

Nb Sub Swarana Singa Chavan (JC-404190H), 02 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Nb Sub Sita Ram (JC-404151K), 02 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Mar 2012)

Nb Sub Devendra Prasad Shukla (JC-403991X), 06 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Mar 2012)

Nb Sub Vinod Kumar (JC-404309F), 07 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

To be Sub (Clk SD)

Nb Sub (Clk SD) Sankarsan Nayak (JC-404226W), 01 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2011)

Nb Sub (Clk SD) Shree Ram Prasad (JC-404230Y), 01 Mar 2012

To be Nb Sub

Hav Dharm Bir Singh (No. 13691918H now JC-404839W), 16 Jan 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 05 Oct 2011)

Hav Rajesh Singh (No. 13691778F now JC-404853H), 15 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 20 Nov 2011)

Hav Gyana Ranjan Sahoo (No. 13691937N now JC-404854L), 15 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Dec 2011)

Hav Ram Bhaj Sukhralia (No. 13691626A now JC-404855N), 17 Jan 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Dec 2011)

Hav Avtar Chand (No. 13691729Y now JC-404856W), 17 Jan 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Dec 2011)

Hav Netra Pal Singh (No. 13692140F now JC-404858F), 03 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Dec 2011)

Hav Balwan Singh (No. 13692834F now JC-404859K), 04 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 29 Dec 2011)

Hav Raj Vir Singh (No. 13690692W now JC-404867H), 16 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jan 2012)

Hav Sita Ram (No. 13691747F now JC-404870H), 01 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jan 2012)

Hav Bhagirath Ram (No. 13692075M now JC-404874Y), 08 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jan 2012)

Hav Prem Pal (No. 13693677M now JC-404876K), 06 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jan 2012)

Hav Shekh Mustufa Bhai Hasan Bhai (No. 13690927X now JC-404879X), 01 Feb 2012

Hav Fateh Singh (No. 13692605W now JC-404880M), 01 Feb 2012

Hav Majorbir Singh (No. 13691757L now JC-404881P), 01 Feb 2012

Hav Sumer Singh (No. 13691777Y now JC-404882X), 01 Feb 2012

Hav Brij Kishore Duvadi (No. 13692456N now JC-404883A), 03 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Hav Vinod Kumar (No. 13695501A now JC-404884H), 03 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Hav Jitendra Singh (No. 13695503L now JC-404885L), 09 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Hav Bir Bahadur Yadav (No. 13693247H now JC-404886N), 23 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Hav Ashok Kumar Rai (No. 13693284W now JC-404887W), 11 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Hav Dinesh Chand Yadav (No. 13693433Y now JC-404889F), 01 Mar 2012

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav (Clk SD) Shiv Prasad Prajapati (No. 2887235N now JC-404877M), 25 Feb 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Feb 2012)

Hav (Clk SD) Manoj Kumar Singh Yadav (No. 13691064N now JC-404878P), 01 Feb 2012

Hav (Clk SD) Haridwar Kumar (No. 13691099K now JC-404888Y), 01 Mar 2012

SUBHABARTA KARMAKAR

Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 265, dated 11th June 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

To be Nb Sub

Rank and Name, Old Army No. New JC No. and Date of Promotion

Hav (Int GD) Jaya Chandran Kariath (No. 14802289K now JC-811579M), 01 Jul 2011

Hav (Int GD) Parminder Singh (No. 3389590X now JC-811580F), 01 Jul 2011

Hav (Int GD) Nagar Mal Yadav (No. 4183787K now JC-811581K), 01 Jul 2011

Hav (Int GD) Mozibar Rahman (No. 6483479P now JC-811582M), 01 Jul 2011

Hav (Int GD) Ramesh Kumar Loyer (No. 2887529F now JC-811583P), 01 Jul 2011

Hav (Int GD) Prakash Kumar Mishra (No. 14401672H now JC-811584X), 01 Jul 2011

Hav (Int GD) Sasi Kumar K K (No. 14805930H now JC-811585A), 02 Jul 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Pramod Singh Negi (No. 14805874P now JC-811586H), 01 Jul 2011

Hav (Int GD) Harish Prasad (No. 2482431W now JC-811588N), 01 Aug 2011

Hav (Int GD) Sandeep Kumar (No. 14916645Y now JC-811589W), 01 Aug 2011

Hav (Int GD) Kharak Singh (No. 8032946X now JC-811590L), 01 Aug 2011

Hav (Int GD) Kishore Singh (No. 2684653N now JC-811591N), 01 Aug 2011

Hav (Int GD) Salunkhe Jalandher Bajirao (No. 2787607Y now JC-811592W), 01 Aug 2011

Hav (Int GD) Vijay Kumar (No. 13980865N now JC-811593Y), 01 Aug 2011

Hav (Int GD) Gulzar Singh Sidhu (No. 2482604H now JC-811594F), 01 Aug 2011

Hav (Int GD) Brijesh Kumar Singh (No. 15371953X now JC-811595K), 01 Aug 2011

Hav (Int GD) Lakhwinder Singh (No. 3391826A now JC-811598X), 01 Sep 2011

Hav (Int GD) Rakesh Kumar (No. 2482756K now JC-811599A), 01 Sep 2011

Hav (Int GD) Vinod Singh Bhau (No. 9089784M now JC-811600K), 01 Sep 2011

Hav (Int GD) Dinesh Kumar (No. 2990529F now JC-811601M), 01 Sep 2011

Hav (Int GD) Lakhvinder Singh (No. 2482889A now JC-811602P), 01 Sep 2011

Hav (Int GD) K Tamilarasan (No. 15308507F now JC-811603X), 01 Sep 2011

Hav (Int GD) Babu Lal Yadav (No. 4184320L now JC-811605H), 13 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Umakant Bhardwaj (No. 13982068F now JC-811606L), 02 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Raghuwar Singh (No. 13692012K now JC-811607N), 15 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Paras Singh Yadav (No. 4183691F now JC-811608W), 14 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Challa Venkata Rao (No. 15307326K now JC-811609Y), 14 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Deo Narayan (No. 14801563K now JC-811610N), 17 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Sham Singh Chib (No. 2482483M now JC-811611W), 18 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Jadhav Vishnu Ranu (No. 13690998Y now JC-811612Y), 14 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Mahesh Chand Sharma (No. 14806253H now JC-811613F), 12 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Pargat Singh Ghuman (No. 3391816W now JC-811614K), 15 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Pinto Victor Anton (No. 14802933L now JC-811615M), 13 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Ajit Kumar Jha (No. 14803005F now JC-811616P), 13 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Bhagwan Singh Bhatia (No. 4184228M now JC-811617X), 28 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Govinda Chandra Sarkar (No. 13691416A now JC-811618A), 13 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Ranbir Singh (No. 2989946F now JC-811619H), 30 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Pramod Kumar Singh (No. 14802729M now JC-811620X), 14 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Devendra Singh (No. 2990519X now JC-811621A), 16 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Subramanian G (No. 14801659M now JC-811622H), 20 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Saji Kumar R (No. 8033096L now JC-811623L), 14 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Pradeep Kumar C (No. 13981850X now JC-811624N), 12 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Manoj Kumar Sharma (No. 13981972F now JC-811625W), 28 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) V Shibu (No. 13982178W now JC-811626Y), 17 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Prakash Singh (No. 4562245A now JC-811627F), 15 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Sukhvir Singh (No. 4184386F now JC-811628K), 28 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Mahesh Kumar (No. 13618698F now JC-811631K), 01 Nov 2011

Hav (Int GD) Harpal Singh (No. 4184416N now JC-811632M), 01 Nov 2011

Hav (Int GD) Nishan Singh (No. 3392583M now JC-811633P), 29 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Ramakant Tiwari (No. 8032859K now JC-811634X), 26 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Pavan Jit (No. 14806179M now JC-811635A), 08 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Naresh Kumar (No. 7431071X now JC-811636H), 14 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) Thath Dilip Bhai Gaful Bhai (No. 7431025H now JC-811637L), 01 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Int GD) S Gurunagandrachary (No. 15113896M now JC-811640L), 01 Dec 2011

Hav (Int GD) Raj Kumar (No. 14802813M now JC-811641N), 01 Dec 2011

Hav (Int GD) Mahesh Kumar Raghav (No. 13889112H now JC-810802Y), 01 Jul 2004

Hav/Clk (SD) Umesh (No. 7430795H now JC-811578K), 01 Jul 2011

Hav/Clk (SD) Bawa Singh (No. 7430826X now JC-811587L), 01 Aug 2011

Hav/Clk (SD) Andhale Pralhad Rajaram (No. 15362451N now JC-811597P), 01 Sep 2011

Hav/Clk (SD) Samir Kumar Biswas (No. 7430800H now JC-811596M), 01 Sep 2011

Hav/Clk (SD) Prakash Sanadi (No. 6381730M now JC-811604A), 14 Oct 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk (SD) Satyavir Singh (No. 14592309M now JC-811629M), 02 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk (SD) Sonavane Sanjay Appa (No. 7430876H now JC-811630F), 01 Nov 2011

Hav/Clk (SD) Sushil Kumar (No. 15305699Y now JC-811639W), 01 Dec 2011

Hav/Clk (SD) Dipak Kumar Nath (No. 7430877L now JC-811638N), 01 Dec 2011

Hav/Clk (SD) Anil Kumar C (No. 7430879W now JC-811642W), 23 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk (SD) Hari Ram Bhardwaj (No. 3980956A now JC-810694A), 01 Apr 2002

Hav/Clk (SD) Ghansham Singh (No. 7430377M now JC-810695H), 01 Apr 2002

RHM/TCL Bhagabana Barik (No. 6928457Y now JC-810767F), 01 Sep 2003

MAHESH KUMR KASHYAP  
Desk Officer

#### ARMY BRANCH

No. 266, dated 12th June 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY ORDNANCE CORPS

#### To be Nb Sub

Hav (AT) Md Baidul Islam (No. 6933401W now JC-729638F), 01 Oct 2011

Hav/Clk (IM) J M Sah (No. 6927450H now JC-729639K), 01 Nov 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk (IM) S H Parida (No. 6928201W now JC-729640Y), 01 Oct 2011

Hav/Clk (IM) S R Jagannath (No. 6928224X now JC-729641F), 23 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk (IM) CP Singh (No. 6928516A now JC-729642K), 01 Dec 2011

Hav/Clk (IM) PR Bagawant Rao (No. 6928614A now JC-729643M), 01 Dec 2011

Hav/Clk (IM) MS Abdul Razak (No. 6928283K now JC-729644P), 01 Jan 2012

Hav/Clk (SD) RN Das (No. 6928431K now JC-729645X), 01 Jan 2012

Hav/Clk (SD) SI Mehbub (No. 6928628A now JC-729646A), 01 Jan 2012

Hav/Clk (SD) SR Prajapati (No. 6928655K now JC-729647H), 01 Jan 2012

Hav/Clk (Im) Anil Kumar V (No. 6928658X now JC-729648L), 01 Jan 2012

- Hav/Clk (IM) SPS Kushwaha (No. 6928660P now JC-729649N), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) M Sahu (No. 6928662A now JC-729650H), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) Rattan Singh (No. 6928664L now JC-729651L), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) Rajesh Kumar (No. 6928672K now JC-729652N), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (SD) Virendra Pratap (No. 6928677H now JC-729653W), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) BK Mandal (No. 6928681L now JC-729654Y), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (SD) Ram Krishna (No. 6928703Y now JC-729655F), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) CV Babu (No. 6928720Y now JC-729656K), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (SD) Hukam Singh (No. 6928725X now JC-729657M), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (SD) DP Yadav (No. 6928739X now JC-729658P), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (SD) Ishwar Singh (No. 6928740M now JC-729659X), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) NV Namdeo (No. 6928767K now JC-729660M), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) KMK Vitthal (No. 6928768M now JC-729661P), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) KH Chandu (No. 6928770K now JC-729662X), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) RS Shakya (No. 6926557L now JC-729663A), 01 Dec 2011
- Hav (SKT GS&C) DSB Rao (No. 6927350X now JC-729664H), 01 Dec 2011
- Hav (SKT GS&C) Gopal Singh (No. 6927023M now JC-729665L), 01 Dec 2011
- Hav (SKT MT) Samunder Singh (No. 6927378X now JC-729666N), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) Narvir Singh (No. 6927389K now JC-729667W), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) Dalvir Singh (No. 6927390Y now JC-729668Y), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) Satbir (No. 6927397H now JC-729669F), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) Balwan Singh (No. 6927401A now JC-729670W), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) Balwan Singh (No. 6927402H now JC-729671Y), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) Suresh Kumar (No. 6927405W now JC-729672F), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) Jasmer Singh (No. 6927409M now JC-729673K), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) R Kanwar (No. 6927412M now JC-729674M), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) Rohtas (No. 6927456K now JC-729675P), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) DS Kunwar (No. 6925516P now JC-729676S), 01 Jan 2012
- Hav (SKT MT) Krishan Chand (No. 6927489P now JC-729677A), 01 Jan 2012
- Hav (SKT MT) Mahavir Singh (No. 6927491M now JC-729678H), 01 Jan 2012
- Hav (SKT GS&C) JB Singh (No. 6927495H now JC-729679L), 01 Jan 2012
- Hav (SKT MT) Samunder Singh (No. 6927499Y now JC-729680A), 01 Jan 2012
- Hav (SKT MT) Radhey Shyam (No. 6927500H now JC-729681H), 01 Jan 2012
- Hav (Dvr MT) B Prasad (No. 6926092W now JC-729682L), 01 Dec 2011
- Hav (SHGD) YH Babu (No. 6925660K now JC-729683N), 01 Jan 2012
- Hav (AT) Biju Kumar D (No. 6930848H now JC-729684W), 01 Feb 2012
- Hav (AT) S Kumar (No. 6933491H now JC-729685Y), 01 Feb 2012
- Hav/Clk (IM) TG Dnyanoba (No. 6928615H now JC-729686F), 20 Jan 2012\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)
- Hav/Clk (IM) Krishna Bharti (No. 6928623F now JC-729687K), 21 Jan 2012\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)
- Hav/Clk (IM) VG Nair B (No. 6928651N now JC-729688M), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) Uttam Chand (No. 6928679N now JC-729689P), 01 Jan 2012
- Hav/Clk (IM) P Mohan Das (No. 6928686K now JC-729690K), 02 Jan 2012\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)
- Hav/Clk (SD) Sher Singh (No. 6928737M now JC-729691M), 01 Jan 2012

Hav/Clk (IM) JV Khashaba (No. 6928771M now JC-729692P), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) Kashmir Singh (No. 6928773X now JC-729693X), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) AP Sekar (No. 6928791A now JC-729694A), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) Nahar Singh (No. 6928793L now JC-729695H), 01 Feb 2012

Hav/Clk (SD) NK Singh (No. 6928798K now JC-729696L), 01 Feb 2012

Hav/Clk (SD) HR Tiwari (No. 6928802F now JC-729697N), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) Ram Lubhaya (No. 6928820K now JC-729698W), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) SK Mahunta (No. 6928822P now JC-729699Y), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) Veeramani N (No. 6928557K now JC-729700H), 01 Feb 2012

Hav/Clk (SD) Sudeesh Kumar M (No. 6928643P now JC-729701L), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) D Sahoo (No. 6926627Y now JC-729702N), 01 Feb 2012

Hav/Clk (SD) Kunwar Pal (No. 6928697W now JC-729703W), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) JS Manola (No. 6928706M now JC-729704Y), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) Par Rao (No. 6928769P now JC-729705F), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) Dhanna Ram (No. 6928827N now JC-729706K), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) Satnam Singh (No. 6928830N now JC-729707W), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) KN Dadu (No. 6928831W now JC-729708P), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) Azad Singh (No. 6928874L now JC-729709X), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) Jiten Bora (No. 6928696N now JC-729710M), 01 Feb 2012

Hav (SKT GS&C) Ramesh Lal (No. 6927330K now JC-729711P), 01 Dec 2011

Hav (SKT MT) Suraj Pal (No. 6927482L now JC-729712X), 01 Feb 2012

Hav (SKT MT) AN Nizamudin (No. 6927538M now JC-729713A), 01 Feb 2012

Hav (SKT MT) Ashit Sarkar (No. 6927633Y now JC-729714H), 01 Feb 2012

Hav (SKT MT) B Debnath (No. 6927635K now JC-729715L), 01 Feb 2012

Hav (SKT GS&C) PM Mohanta (No. 6927641X now JC-729716N), 01 Feb 2012

Hav (SKT MT) SK Biswas (No. 6927643H now JC-729717W), 01 Feb 2012

Hav (SKT GS&C) Kiran Pal (No. 6927645N now JC-729718Y), 01 Feb 2012

Hav (SKT GS&C) P Pradhan (No. 6927631N now JC-729719F), 01 Feb 2012

Hav (Dvr MT) Base Oraon (No. 6926415N now JC-729720W), 01 Feb 2012

Hav (SHT) Keshav Prasad (No. 6924726H now JC-729721Y), 01 Feb 2012

Hav (SHGD) Sher Singh (No. 6925792X now JC-729722F), 01 Feb 2012

Hav (SHGD) AK Singh (No. 6926102P now JC-729723K), 01 Feb 2012

Hav (SHGD) Dalip Singh (No. 6926214P now JC-729724M), 01 Feb 2012

Hav (SHGD) H Swain (No. 6926732P now JC-729725P), 01 Feb 2012

Hav (AT) M Muthuraman (No. 6933106N now JC-729726X), 25 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) OS Pal (No. 6935008M now JC-729727A), 01 Mar 2012

Hav (AT) CS Azad (No. 6935661A now JC-729728H), 01 Mar 2012

Hav/Clk (SD) KPK Rao (No. 6928625M now JC-729729L), 13 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk (IM) RK Singh (No. 6928342L now JC-729730A), 01 Feb 2012

Hav/Clk (IM) MD Jaliluddin (No. 6928758H now JC-729731H), 01 Mar 2012

Hav/Clk (IM) Shakir Hussain (No. 6928812L now JC-729732L), 01 Mar 2012

Hav/Clk (IM) US Yadav (No. 6928890H now JC-729733N), 01 Mar 2012

Hav/Clk (IM) JS Rana (No. 6928828W now JC-729734W), 01 Mar 2012

Hav/Clk (IM) M Pradhan (No. 6926167H now JC-729735Y), 01 Mar 2012

Hav/Clk (IM) Virendra Kumar (No. 6928749F now JC-729736F), 01 Mar 2012

Hav/Clk (IM) SL Prajapati (No. 6926791F now JC-729737K), 01 Mar 2012

Hav/Clk (IM) ZG Shriram (No. 6927386W now JC-729738M), 01 Mar 2012

Hav/Clk (IM) HA Govind (No. 6928230L now JC-729739P), 01 Mar 2012

Hav (SKT Wep) Venkatesh Babu S (No. 6927711L now JC-729740K), 01 Mar 2012

Hav (SKT Engr) RP Pandey (No. 6924996X now JC-729741M), 01 Mar 2012

Hav (SKT Engr) MRS Yadav (No. 6925170W now JC-729742P), 01 Mar 2012

Hav (SKT Amn) Chandra Singh (No. 6924853X now JC-729743X), 01 Mar 2012

Hav (Dvr MT) Prakash Chandra (No. 6925905P now JC-729744A), 01 Mar 2012

Hav (SHGD) GK Singh (No. 6926707W now JC-729745H), 01 Feb 2012

Hav (SHGD) RS Singh (No. 6926821N now JC-729746L), 01 Mar 2012

Hav (SHGD) Pradeep Kumar (No. 6926826M now JC-729747N), 01 Mar 2012

N K KASHMERA  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 267, dated 12th June 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Jasanbir Singh (JC-418852L), 02 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Sub Maj wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Sub Megh Raj (JC-419474K), 01 Mar 2012

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Chander Bhan (JC-421426H), 17 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Onkar Singh Chauhan (JC-421352Y), 10 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Umesh Kumar Bal (JC-421122L), 01 Mar 2012

Nb Sub Omkar Singh (JC-421128M), 01 Mar 2012

Nb Sub Dinesh Kumar Sharma (JC-421132P), 01 Mar 2012

Nb Sub Vijay Pal (JC-421307M), 01 Mar 2012

Nb Sub Vishnu Bhendwade (JC-421428N), 01 Mar 2012

Nb Sub Mahesh Chandra Zalaya (JC-421429W), 01 Mar 2012

Nb Sub K Muniandy (JC-421512N), 10 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Jaswant (No. 14918861L now JC-422112N), 01 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagwan Singh Rawat (No. 14917868H now JC-422113W), 01 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar (No. 14920502W now JC-422114Y), 31 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Parmjit Singh (No. 14916496W now JC-422115F), 19 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Stephen Kennedy (No. 14919884Y now JC-422116K), 05 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Devendra Pal Singh (No. 14916252H now JC-422117M), 02 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Tilak Raj (No. 14916385Y now JC-422118P), 02 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Surinder Singh (No. 14916626N now JC-422119X), 02 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)



Hav Rajesh Kumar (No. 14920209Y now JC-422120M),  
02 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Desh Raj (No. 14917068K now JC-422121P),  
02 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Sukha Ram Dewasi (No. 14919843P now JC-422122X),  
04 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Gurdip Singh (No. 14920125L now JC-422123A),  
16 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Subhash Chand (No. 14919940M now JC-422124H),  
01 Jan 2012\*

Hav Sanjay Kumar (No. 14920854N now JC-422125L),  
14 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Sunil Kumar Singh (No. 14918204F now JC-422126N),  
01 Jan 2012\*

Hav Ram Sukh (No. 14918627P now JC-422127W),  
01 Jan 2012\*

Hav Mukesh Babu (No. 14918524W now JC-422128Y),  
01 Jan 2012\*

Hav Anil Kumar (No. 14918709X now JC-422129F),  
10 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Kumar (No. 14918998X now JC-422130W),  
10 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Sewak Mistry (No. 14915947Y now JC-422131Y),  
11 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Ranjan (No. 14917993M now JC-422132F),  
01 Feb 2012

Hav Kastoori Lal (No. 14918608K now JC-422133K),  
01 Feb 2012

Hav Bibhuti Kumar Sah (No. 14920705A now JC-  
422134M), 01 Feb 2012

Hav Rakesh Kumar Singh (No. 14919686N now JC-  
422135P), 01 Feb 2012

Hav Balbir (No. 14918820F now JC-422136X), 04 Feb  
2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Subhash Chandra Singh (No. 14919643Y now JC-  
422137A), 01 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

#### ARMOURED CORPS

##### To be Nb Ris

Dfr Rajanna KV (No. 15462912F now JC-245493H),  
19 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2011  
without effect on pay and allowances)

Dfr Rajesh Kumar Singh (No. 15465521F now JC-  
245505M), 01 Feb 2012

Dfr Darshan Singh (No. 15463112P now JC-245516Y),  
01 Feb 2012

Dfr Jahangir Mallick (No. 15461713F now JC-245533Y),  
15 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Dec 2011  
without effect on pay and allowances)

Dfr Harwinder Singh (No. 15461626N now JC-245545N),  
01 Feb 2012

Dfr Rajeshwar Mahato (No. 1099645Y now JC-245567M),  
01 Feb 2012

Dfr Naven Chandra Sudan (No. 15461210W now JC-  
245568P), 01 Feb 2012

Dfr Narinder Singh (No. 15463256X now JC-245573A),  
01 Feb 2012

Dfr Charanjit Singh (No. 15463323X now JC-245574H),  
01 Feb 2012

Dfr Desh Raj Thakur (No. 15464846H now JC-245580W),  
03 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Diger Singh (No. 1099305W now JC-245583K),  
01 Feb 2012

Dfr Jagjit Singh (No. 15462735M now JC-245584M),  
30 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Tribhuvan Kumar (No. 15465623X now JC-245588H),  
01 Feb 2012

Dfr Siba Prasad Rout (No. 15462792N now JC-245590A),  
24 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Surinder Kumar (No. 15465223L now JC-245591H),  
27 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Bhagwant Singh (No. 15467055W now JC-245592L),  
10 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Joginder Singh (No. 1099623A now JC-245593N),  
25 Jan 2012

Dfr Golivi Eswara Rao (No. 1099719H now JC-245594W),  
01 Feb 2012

Dfr Pawan Singh (No. 15463686F now JC-245596F),  
06 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Ritesh Kumar (No. 15461988P now JC-245598M),  
01 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Jagraj Singh Chahal (No. 15461139N now JC-245599P),  
01 Feb 2012

Dfr Sukhdev Singh (No. 15461144Y now JC-245600Y),  
01 Feb 2012

Dfr Venkatesan R (No. 15462990Y now JC-245601F),  
01 Feb 2012

Dfr Prem Prakash Singh (No. 15461720X now JC-245604P),  
04 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Baljit Singh (No. 15462220M now JC-245610H),  
02 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Rajvir Singh (No. 15462271A now JC-245611L),  
02 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Ravinder Kumar (No. 15468832A now JC-245614Y),  
07 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Charanjit Singh (No. 15461148P now JC-245620M),  
06 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Allanor Kathat (No. 15463603L now JC-245622X),  
07 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Satnam Singh (No. 15463814N now JC-245623A),  
07 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Pradeep KG (No. 15463552H now JC-245624H),  
05 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Anwar Hussain (No. 15464784N now JC-245626N),  
05 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Pitabasa Sahoo (No. 15462675H now JC-245627W),  
06 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Jagdish (No. 15461521K now JC-245438M), 07 Dec  
2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2011  
without effect on pay and allowances)

Dfr Sabal Singh (No. 15461569X now JC-245514N),  
01 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Dinesh Kumar Jhaharia (No. 15461872Y now JC-  
245546W), 01 Mar 2012

Dfr Srinivasa Reddy D (No. 15462022F now JC-245547Y),  
22 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Rokade Yogiraj Jagannath (No. 15462475M now JC-  
245569X), 01 Mar 2012

Dfr Sarnam Singh (No. 15462031H now JC-245576N),  
26 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Mir Kamruzzaman (No. 15463830L now JC-245587A),  
26 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Jan 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Komal Singh (No. 15462063L now JC-245589L),  
22 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Rajesh Singh (No. 15464121H now JC-245595Y),  
07 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Lakhwinder Singh (No. 15467244A now JC-245602K),  
01 Mar 2012

Dfr Kumbhar Dayamand Shankar (No. 1099783A now JC-  
245605X), 01 Mar 2012

Dfr Velmurugan K (No. 15461041A now JC-245606A),  
01 Mar 2012

Dfr Virender Singh Rathore (No. 15463967X now JC-  
245616K), 08 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Harpal Singh (No. 15464371K now JC-245619X),  
01 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Balwinder Singh (No. 15463450M now JC-245666P),  
01 Mar 2012

Dfr Harbhajan Singh (No. 15463821K now JC-245667X),  
01 Mar 2012

Dfr Gobardhan Bhoi (No. 15462673X now JC-245628Y),  
01 Mar 2012

Dfr Gopal Yadava (No. 15462437W now JC-245629F),  
01 Mar 2012

Dfr Makhan Singh (No. 15462205X now JC-245630W),  
01 Mar 2012

Dfr Jarnail Singh (No. 15464294A now JC-245631Y),  
01 Mar 2012

Dfr Rakesh Kumar (No. 15461415L now JC-245639L),  
27 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Sahab Singh (No. 15461579F now JC-245640A),  
13 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Praveen Kumar (No. 15461580W now JC-245641H),  
27 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajinder Kumar (No. 15465707L now JC-245642L),  
18 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Ashok Kumar (No. 15461877X now JC-245643N),  
01 Mar 2012

Dfr Audesh Singh (No. 15465486K now JC-245656L),  
18 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Mitra Pal (No. 15465693W now JC-245657N), 18 Feb  
2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Narendra Kumar (No. 15465741L now JC-245658W),  
18 Feb 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Sumender Singh (No. 15466660X now JC-245659Y),  
02 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Shrawan Kuamr Singh (No. 15464544W now JC-  
245669H), 01 Mar 2012

Dfr Bharat Bhushan (No. 1099307F now JC-245670X),  
01 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Feb  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Jaspreet Singh (No. 15464231X now JC-245675W),  
05 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Narinder Singh (No. 15463412W now JC-245679M),  
03 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012  
without effect on pay and allowances)

Dfr Rambeer (No. 15464148A now JC-245680F), 03 Mar  
2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar  
2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Baljit Singh (No. 15463462F now JC-245681K),  
03 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajesh Kumar (No. 15463679L now JC-245686H),  
06 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Suresh Kumar (No. 15462705P now JC-245687L),  
06 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Gurmit Singh (No. 15461235H now JC-245697P),  
07 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Dfr Nishan Singh (No. 15461374M now JC-245698X),  
12 Mar 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

SUBHABARTA KARMAKAR  
Under Secy.

#### AIR BRANCH

No. 268, dated 12th June 2012—The President is pleased to make the following Subs Promotions:—

#### INDIAN AIR FORCE

#### AE BRANCH

To be Subs Air Vice Marshal

Rank, Name, Number, Br & Date

AVM MR Pawar (15833), AE(M), 01 Sep 2011

AVM SN Murti (15945), AE(L), 01 Oct 2011

AVM H Sharma (15941), AE(L), 01 Oct 2011

AVM RKS Shera (16315), AE(L), 01 Oct 2011

AVM BK Sood (16319), AE(L), 02 Jan 2012

To be Subs Air Vice Marshal (ADM Branch)

AVM BBP Sinha (15748), ADM, 01 Oct 2011

AVM R Nambiar (16378), F(P), 28 Dec 2011

AVM PN Pradhan (16403), F(P), 28 Dec 2011

AVM HS Arora (16557), F(P), 28 Dec 2011

AVM NJS Dhillon (16580), F(P), 28 Dec 2011

AVM R Sachdeva (16582), F(P), 28 Dec 2011

AVM A Subramaniam (16592), F(P), 28 Dec 2011

AVM VS Bharti (16611), F(P), 28 Dec 2011

AVM RD Mathur (16772), F(P), 28 Dec 2011

To be Subs GP Capt (ADM Branch)

GP Capt S Dubey (18309), ADM, 04 Apr 2011

GP Capt DB Patil (18312), ADM, 02 May 2011

GP Capt R Srinivasan (18327), ADM, 02 May 2011

A K SINGH

Dy Dir Personnel (Officer)-2B

#### ARMY BRANCH

No. 269, dated 13th June 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 27 Dec 2010 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Major

Atiya Aziz (MS-15727H) (MR-09279L), AMC, 25 Apr 2010

(MoD Notification published in Gazette of India dated 25 Dec 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Capt

Jas Kanwar Singh (MS-14584F) (MR-09270W), AMC, 17 Mar 2003

(MoD Notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Drona Sharma (MS-15321P) (MR-09283N), AMC, 22 Sep 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Atiya Aziz (MS-15727H) (MR-09279L), AMC, 25 Apr 2008, with seniority for pay and promotion from 25 Apr 2006 (this includes 24 months antedate for PG Diploma in Obstetrics & Gynaecology which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Swaraj Paul Khajuria (MS-15863Y) (MR-09275P), AMC, 12 Aug 2008, with seniority for pay and promotion from 12 Feb 2008 (this includes 06 months antedate for hospital Appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Rahul Sharma (MS-15929K) (MR-09267W), AMC, 16 Sep 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Vikas Chaudhary (MS-15852M) (MR-09263A), AMC, 12 Aug 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 03 Aug 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Shrihari Iyer K (MS-15776L) (MR-09256K), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Abhshek Bhardwaj (MS-15324H) (MR-09250H), AMC, 22 Sep 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt

Rajit Kumar (MS-15817K) (AF-29437R), (MR-09271Y), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Lt

Rajath Govind (MS-15506W) (MR-09249N), AMC, 26 Mar 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 270, dated 13th June 2012—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

IC No. Rank, Name, Arms/Ser and Date of Premature Retirement

(IC-43374) Col Ivin George, Inf, 27 Jul 2006 (AN)

(IC-37577) Col (TS) MM Thimmiah, Inf, 19 Jul 2006 (AN)

(IC-34061) Col Ranvir Kumar Abrol, Mech Inf, 28 Oct 2006 (AN)

(IC-37184) Col Suresh Kumar Jamwal, VSM, Inf, 11 Dec 2006

(IC-31676) Col (TS) Nabyendu Kanti Bhattacharyya, Inf, 10 Dec 2006 (AN)

(IC-30741) Col (TS) Khanna Vivek Kumar, Inf, 02 Oct 2006 (AN)

(IC-39447) A/Col Jagmohan Singh, Inf, 05 Aug 2006 (AN)

(IC-39897) A/Col Bharat Bhushan Vats, Mech. Inf, 31 May 2006 (AN)

(IC-39693) Col Hura Rakesh, Inf, 13 Jul 2006 (FN)

(IC-38228) Col (TS) Chandra Shekher Joshi, AEC, 12 Dec 2006 (AN)

(IC-36463) Col (TS) Vinod Bhalla, EME, 14 Oct 2006 (AN)

(IC-39157) Col Sharma Harsh Vardhan, Inf, 15 May 2007 2007 (AN)

(IC-40717) Col Sandeep Dhawan, Inf, 02 Apr 2007 (AN)

(IC-43113) Col Gurvinder Singh Bedi, Sm, Mech Inf, 31 Jul 2007 (AN)

(IC-43325) Col Chaubal Samir Arvind, Inf, 24 Sep 2007 (AN)

(IC-39100) Col Bikram Seth, Inf, 14 Mar 2007 (AN)

(IC-43289) Col Nair Shyam Bhaskaran, Inf, 27 Aug 2007 (AN)

(IC-35982) Col B Chavan Satish, Inf, 09 Dec 2007 (AN)

(IC-39009) Col (TS) Shameem Ali Khan, Inf, 06 Jul 2007 (AN)

(IC-42679) Col Jadvinder Pal Singh, EME, 16 Jan 2007 (AN)

(IC-34456) Col (TS) Mahesh C Kanagotagi, ASC, 10 Oct 2005 (AN)

(IC-44380) Col Manu Raj Singh, Inf, 26 Sep 2007 (AN)

(IC-33888) Col (TS) Naresh Yadav, Inf, 18 Mar 2007 (AN)

(IC-34625) Col (TS) Jagdish Singh, Inf, 31 Oct 2007 (AN)

(IC-39202) Col (TS) Patil Sharadchandra Shankarrao, Inf, 26 Jun 2007 (AN)

(IC-40890) Col Rajnish Handa, Inf, 24 Dec 2007 (AN)

(IC-38510) Col (TS) Shivanand Basappa Karadi, Arty, 09 May 2007 (AN)

(IC-38860) Col (TS) Arvind Kumar Anand, AC, 08 Oct 2008 (AN)

(IC-39089) Col Balbir Singh Gill, AC, 11 Apr 2008 (AN)

(IC-38831) Col (TS) Harsh Sachdev, Arty, 07 Jun 2008 (AN)

(IC-45963) Col Vineet Seth, Inf, 06 Mar 2011 (AN)  
 (IC-48537) Col Alok Jha, SM, Inf, 15 May 2011 (AN)  
 (IC-40384) Col George Jacob, Inf, 12 Nov 2011 (AN)  
 (IC-51449) Col Vinod Kumar, EME, 03 Nov 2011 (AN)  
 (IC-44586) Col Sukhwir Singh, AOC, 30 Nov 2011 (AN)  
 (IC-47116) Col Rajesh Singh Hoon, Sigs, 31 Oct 2011 (AN)  
 (IC-48642) Col Anurag Chandra, Sigs, 31 Jul 2011 (AN)  
 (IC-44113) Col Kabir Chaudhary, Inf, 07 Jan 2012 (AN)  
 (IC-48566) Col SD Aravendan, Inf, 02 Jan 2012 (AN)  
 (IC-42373) Col Sharad Paliwal, Army AVN, 13 Jan 2012 (AN)  
 (IC-39400) Col (TS) Pachauri Vipin Behari Lal, EME, 31 May 2006 (AN)  
 (IC-45542) Col PN Balasubramanian, EME, 12 Sep 2006 (AN)  
 (IC-40683) A/Col Sudesh Prakash Yadav, EME, 24 May 2006 (AN)  
 (IC-34282) Col Prabhdeep Singh Sandhu, EME, 29 Jun 2006 (AN)  
 (IC-35431) Col (TS) Abhay Kumar Patoria, EME, 16 Mar 2006 (AN)  
 (IC-31355) Col Manbir Hundal, AC, 10 Dec 2006 (AN)  
 (IC-38103) Col (TS) Gandavarapu Vijay Kumar, Int, 04 Dec 2006 (AN)  
 (IC-42970) Col NarehKumar Singh Shekhawat, Inf, 31 Oct 2007 (AN)  
 (IC-38322) Col Pendse Jayant R, Inf, 21 Apr 2007 (AN)  
 (IC-34910) Col (TS) Anil Kumar Madra, Inf, 31 May 2007 (AN)  
 (IC-35584) Col Girish Kumar Gujjala, VSM, Inf, 06 Aug 2007 (AN)  
 (IC-47887) Col Victor Peter Christopher, SC, SM, Inf, 26 Dec 2007 (AN)  
 (IC-43172) Col (TS) Ravindra Kumar, Engrs, 15 Aug 2011 (AN)

(IC-37719) Col (TS) Bhaskar Raghunath, AOC, 23 Oct 2011 (AN)  
 (IC-39914) Col(TS) Fateh Singh Virk, Arty, 06 Nov 2011 (AN)  
 (IC-39359) Col (TS) Rabindra Nath Senapati, Arty, 31 Oct 2011 (AN)  
 (IC-38807) Col (TS) Neeraj Kumar Verma, Inf, 07 Mar 2011 (AN)  
 (IC-38981) Col (TS) Ghorpade Dhananjay Dattajirao, Inf, 07 Nov 2011 (AN)  
 (IC-47026) Col Vikas Grover, Arty, 11 Jan 2012 (AN)  
 (IC-47237) Col Verendra Kumar Sharma, ASC, 15 Jan 2012 (AN)

VANDANA DUBE  
 Dy Dir MS/PR

#### ARMY BRANCH

No. 271, dated 13th June 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform:—

#### TERRITORIAL ARMY

#### RETIREMENT

Lt. Col Jaswant Singh (TA-42118), Engr(TA), 30 Jun 2010 (AN)

V. RAJANATH  
 Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 272, dated 14th June 2012—The President is pleased to make the following appointments:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### CORRIGENDUM

Gazette of India, part I Section IV, Ministry of Defence published on 30 Dec 2006 under the heading Regular Army 'Permanent Commission' is hereby amended to add the following remarks against IC-67614P Saroj Kumar Adhikary, AOC.

"He has been granted ante date seniority wef 11 Dec 1999."

RAHUL SANGWAN  
 Lt. Col AMS-8B

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012